

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2024—पौष 22, शक 1945

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2024

एफ-1-3-2-0006-2023-सूअप्र-एक-9-06.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय श्री विजय मनोहर तिवारी, मा. राज्य सूचना आयुक्त को सपत्नीक दिनांक 10 से 18 अक्टूबर, 2023 तक भोपाल से पोर्टब्लेयर (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) व्हाया बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष नवम्बर, 2018 से अक्टूबर 2022 के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य "10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण" का (दूसरी बार) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2024

एफ-1-3-2-0012-2023-सूअप्र-एक-9-03.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मा. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त,

भोपाल को दिनांक 8 से 12 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिवस के अर्जित अवकाश (Personal Work) की स्वीकृति / अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुमन रायकवार, अपर सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

फा. क्र. 6061-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री फरहान शम्सी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश), मंडला का व्यवहार न्यायाधीश "कनिष्ठ खण्ड" के पद से त्याग-पत्र दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकार करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव, सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2024

क्रमांक 5556/21-ब (एक), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 9 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1996 के नियम 14 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (क 1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 11-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये निम्न अनुसूची के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट तालुक/तहसील विधिक सेवा समितियों के लिये, राज्य शासन एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिरपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है।

### अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	नाम निर्देशित सदस्य का नाम व पता
1	2	3	4
01	अलीराजपुर	अलीराजपुर	1- श्री रमण सिंह सोलंकी, अधिवक्ता 2- श्री चितवन गेहलोत, अधिवक्ता
		1 जोबट	1- श्री एल.एन. वाणी, अधिवक्ता
02	अनूपपुर	अनूपपुर	1- श्री के.ए. प्रसाद अधिवक्ता 2- श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
		1- कोतमा	1- श्री उपेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
		2- राजेन्द्रग्राम	1- श्री तीरथ प्रसाद लवमेश, अधिवक्ता
03	अशोकनगर	अशोकनगर	1- श्री जगत नारायण राजौरिया, अधिवक्ता 2- श्रीमती रचना गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- मुंगावली	1- श्री राधा मोहन तिवारी, अधिवक्ता
		2- चंदेरी	1- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
04	बडवानी	बडवानी	1- श्री राजन मण्डलोई अधिवक्ता/सामा.कार्यकर्ता 2- सुश्री जया शर्मा, अधिवक्ता/सामा. कार्यकर्ता
		1- सेंधवा	1- श्रीमती निशा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता
		2- राजपुर	1- श्री राजेश कुमार सत्संगी, अधिवक्ता/सामा.कार्यकर्ता
		3- अंजड़	1- श्री माणक वडनरे, सामाजिक कार्यकर्ता
		4- खेतिया	1- श्री राजेश नाहर, सामाजिक कार्यकर्ता

05	बालाघाट	बालाघाट	1- श्रीमती सुनीता बाघमारे, सामा. कार्यकर्ता 2- कृ. कमर सुल्ताना, सामा. कार्यकर्ता,
		1- वारासिवनी	1- श्री आनंद बिसेन, अधिवक्ता,
		2- बैहर	1- श्री फत्तेसिंह कमलेश, सेवानिवृत्त प्राचार्य
		3- कंटगी	1- श्री संजय खोब्रागढ़े, अधिवक्ता,
		4-लांजी	1- श्री ताराचंद रणदिवे, अधिवक्ता
06	बैतूल	बैतूल	1- श्री शिव प्रसाद पाटिल, अधिवक्ता 2- श्रीमती माला खातरकर, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- मुलताई	1- श्री सुभाष लोखण्डे, अधिवक्ता
		2- भैसदेही	1- श्री तुलसीराम पेठे, अधिवक्ता
		3-आमला	1- श्री सुरेन्द्र खातरकर, अधिवक्ता
07	भिण्ड	भिण्ड	1- श्री संजीव बरूआ, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्रीमती नीतेश जैन, सामाजिक कार्यकर्ता
		1 मेहगांव	1- श्री सर्वेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता,
		2 गोहद	1- श्री के.पी. राठौर, अधिवक्ता
		3 लहार	1- श्री कच्छेदी लाल बघेल, अधिवक्ता,
08	भोपाल	भोपाल	1- श्री अजीज अहमद सिद्दीकी, अधिवक्ता 2- सुश्री मीरा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- बैरसिया	1- श्रीमती जया साहू, सामाजिक कार्यकर्ता
09	बुरहानपुर	बुरहानपुर	1- श्री संजय विजयवर्गीय, अधिवक्ता 2- श्रीमती मेघा भिड़े, सामाजिक कार्यकर्ता
10	छतरपुर	छतरपुर	1- श्रीमती अनुपमा राणा, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्रीमती गीता जाटव, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- नौगांव	1- श्रीमती तृप्ती कठैल, सामाजिक कार्यकर्ता
		2-राजनगर	1- श्रीमती मेहरुन सिद्दीकी, सामा. कार्यकर्ता
		3-लवकुश नगर	1- श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता
		4-बड़ामलहरा	1- डॉ. श्री रमेश असाठी, सामाजिक कार्यकर्ता
		5- बिजावर	1- श्री कपिल खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
11	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	1- श्रीमती सपना झुनझुनवाला, अधिवक्ता 2- श्री श्यामल राव, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- अमरवाड़ा	1- श्री हरि प्रसाद कटारे, अधिवक्ता
		2- चौरई	1- श्री राजकुमार मिश्रा, अधिवक्ता
		3-जुन्नारदेव	1- श्री सलीमुद्दीन अधिवक्ता
		4-पादुर्णा	1- श्री विजय केवट, अधिवक्ता
		5-परासिया	1- श्री शांति तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता
		6- सौंसर	1- श्री रवि शंकर धुर्वे, अधिवक्ता
12	दमोह	दमोह	1- श्री हरिशंकर दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री नरेश मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता
		1-हटा	1- श्री प्रशांत कुमार पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता
		2-पथरिया	1- श्री पुरुषोत्तम लाल खरे
		3- तेन्दूखेड़ा	1- श्री लेखाराम साहू, अधिवक्ता / सामा. कार्यकर्ता

13	दतिया	दतिया	1- श्री हरिओम गुप्ता, अधिवक्ता 2- श्री राजेन्द्र तिवारी, अधिवक्ता
		1- सेवड़ा	1- श्री गजेन्द्र पाण्डेय, सामाजिक कार्यकर्ता
		2- भाण्डेर	1- श्री सवाह उद्दीन, अधिवक्ता
14	देवास	देवास	1- श्रीमती सीमा यादव, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री सैयद मकसूद अली, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- टोंकखुर्द	1- श्री विमल कुमार सांकला, सामाजिक कार्यकर्ता
		2- सोनकच्छ	1- श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता
		3- कन्नौद	1- श्री अंकुश सारडा, अधिवक्ता
		4- बागली	1- श्री महेन्द्र पाटीदार, अधिवक्ता
		5- खातेगांव	1- श्री राजकुमार यादव, अधिवक्ता
15	धार	धार	1- श्री दिपेन्द्र शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री नवीन भंवर, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- मनावर	1- श्री रमेशचन्द्र कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता
		2- बदनावर	1- श्री सुजीत ढोडकर, सामाजिक कार्यकर्ता
		3- धरमपुरी	1- श्री हीरा चन्द्र सेठी, सामाजिक कार्यकर्ता
		4- सरदारपुर	1- डॉ. श्री विनोद अग्निहोत्री, सामाजिक कार्यकर्ता
		5- कुक्षी	1- डॉ. श्री निर्मल पाटीदार, सामाजिक कार्यकर्ता
16	डिण्डौरी	डिण्डौरी	1- श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री राज नारायण दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- शहपुरा	1- श्री राकेश पाठक, अधिवक्ता, शहपुरा
17	गुना	गुना-	1- श्री राजेश अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री घनश्याम श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त प्राचार्य
		1- चाचौड़ा	1- श्री घासीलाल नामदेव, सामाजिक कार्यकर्ता
		2- राघौगढ़	1- श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता
		3- आरोन	1- श्री अरविन्द्र शर्मा अधिवक्ता.
18	ग्वालियर	ग्वालियर	1- श्री रतन कुमार वर्मा, सेवा निवृत्त न्यायाधीश 2- डॉ. श्री एन.डी.वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- डबरा	1- श्री अरुण कुमार गौतम, अधिवक्ता
		2- भितरवार	1- श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता
19	हरदा	हरदा	1- श्रीमती आभा अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री भगवानदास ढोके, अधिवक्ता
		1- खिरकिया	1- श्री गौरी शंकर राय, अधिवक्ता
		2- टिमरनी	1- श्री सतीश कुमार शुक्ला सामाजिक कार्यकर्ता
20	इन्दौर	इन्दौर	1- श्री संजय मेहरा, अधिवक्ता 2- श्री हेमनारायण गिरी, अधिवक्ता
		1- डॉ अम्बेडकर नगर (महू)	1- श्री उमेश कौशल, अधिवक्ता
		2- देपालपुर	1- श्री प्रकाशचन्द्र धाकड़, अधिवक्ता
		3- सांवेर	1- श्री धर्मेन्द्र राठौर, अधिवक्ता
		4- हातौद	1- श्री ईश्वर चन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता



21	जबलपुर	जबलपुर	1- श्री एम0सी0सोनी, सेवा निवृत्त जिलान्यायाधीश 2- श्री राजेश बावरिया, अधिवक्ता
		1- सिहोरा	1- श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता
		2- पाटन	1- श्री आर. पी. खम्मरिया, अधिवक्ता
		3- मझौली	1- श्री नरेन्द्र कुमार राय, अधिवक्ता
22	झाबुआ	झाबुआ	1- श्री मोहन लाल गामड, अधिवक्ता, 2- श्री जयेन्द्र बैरागी, सामा0 कार्यकर्ता
		1- थांदला	1- श्री पन्नालाल जी मोड, सामा, कार्यकर्ता,
		2- पेटलावाद	1- श्री हरिशंकर पंवार,
23	कटनी	कटनी	1- श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता 2- श्री रवि नामदेव सामाजिक कार्यकर्ता
		1- विजयराघवगढ़	1- श्री अब्दुल खलिक, अधिवक्ता
		2-बरही	1- श्री सूर्यकान्त तिवारी
		3- ढीमरखेड़ा	2- श्री रमेश पटेल, अधिवक्ता
24	खण्डवा	खण्डवा	1-श्री जगदीशचन्द्र चौरे, सामाजिक कार्यकर्ता 2-श्रीमती अनीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- हरसूद	1- श्री निखिल गौतम, अधिवक्ता
		2- पुनासा	1- श्री खेलेन्द्र सावनेर, सामाजिक कार्यकर्ता
25	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	1- श्री राजीव काले, सामा0 कार्यकर्ता 2-श्रीमती मनीषा शास्त्री सामा कार्यकर्ता
		1- बड़वाह	1-श्रीमती प्रेमलता तिवारी, सामा कार्यकर्ता
		2- सनावद	1- श्री कृष्णराव सोनाने, अधिवक्ता,
		3- भीकनगांव	1- श्री अक्षय अग्रवाल, अधिवक्ता
		4- खरगौन	1- श्री राजाराम दीक्षित, अधिवक्ता
		5- कसरावद	1-श्रीमती नीता शर्मा, समाजिक कार्यकर्ता
		6- महेश्वर	1- श्री हंसराज सोनी, अधिवक्ता
26	मण्डला	मण्डला	1- श्री संतोष कछवाहा, अधिवक्ता 2- श्री प्रशांत सोनी, अधिवक्ता
		1- निवास	1- श्री रतन चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता
		2-नैनपुर	1- श्री अशोक झारिया, अधिवक्ता
		3-भुआ बिछिया	1- श्री जे.पी.एन. मिश्रा, अधिवक्ता
27	मंदसौर	मंदसौर	1- श्रीमती उर्मिला तोमर, सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री नाहरु खां मेव, सामाजिक कार्यकर्ता,
		1- गरोठ	1- श्री वशिष्ठ कुमार शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता
		2- भानपुरा	1- श्री सांवरलाल जैन सामाजिक कार्यकर्ता
		3- सीतामऊ	1- श्री अंशुल जैन, सामाजिक कार्यकर्ता
		4- नारायणगढ़	1- श्री बद्रीलाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता
		5- सुवासरा	1- श्री कैलाश गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता
28	मुरैना	मुरैना	1-श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता 2- श्रीमती शारदा शर्मा, अधिवक्ता
		1- अम्बाह	1- श्री बच्चू सिंह तोमर अधिवक्ता,
		2- जौरा	1- श्री रामसेवक उपाध्याय अधिवक्ता
		3- सबलगढ़	1- श्री मुन्ना लाल धाकड़, अधिवक्ता,
		4- पोरसा	1- सुश्री अंजली तोमर, सामाजिक कार्यकर्ता

29	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम (होशंगाबाद)	1- सुश्री तारा मालवीय 2- श्री शेरसिंह बडकुर
		1- इटारसी	1- श्री राजकुमार पाण्डेय
		2- पिपरिया	1- श्री मनोहर पटेल
		3- सोहागपुर	1- भानू प्रकाश तिवारी
		4-सिवनी मालवा	1- श्री राकेश शर्मा
		5- पचमढ़ी	1- श्री पंकज जायसवाल
30	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	1- श्रीमती विवेक पाण्डेय, समाजिक कार्यकर्ता 2- श्री सुधीर दुबे, अधिवक्ता
		1-गाडरवारा	1- श्री दिनेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता
		2- तेन्दुखेडा	1- श्री सजन शर्मा, अधिवक्ता
31	नीमच	नीमच	1-श्री शिव नारायण पाटीदार, अधिवक्ता 2- श्री वंशीलाल धनोतिया, समाजिक कार्यकर्ता
		1- मनासा	1- श्री वीरेन्द्र उपाध्याय, अधिवक्ता
		2- जावद	1- श्री दीपक तडबा, अधिवक्ता
		3- रामपुरा	1- श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता
32	पन्ना	पन्ना	1- श्री आशा खरे, अधिवक्ता 2- श्री आशिफ खान, पी.एल.व्ही.
		1- पवई	1-श्री मनोज पाठक अधिवक्ता
		2- अजयगढ़	1-सुश्री वंदना चतुर्वेदी, अधिवक्ता
33	रायसेन	रायसेन	1- डॉ श्री खुशराज धोटे सामाजिक कार्यकर्ता, 2- श्रीमती साधना शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता,
		1- गौहरगंज	1- श्री नोमान अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता,
		2- बेगमगंज	1- श्री शिवनारायण नीखरा, सामाजिक कार्यकर्ता,
		3- गैरतगंज	1- श्री बलीराम राय, सामाजिक कार्यकर्ता,
		4- बरेली	1- श्री आयुष श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता
		5- उदयपुरा	1- श्री मिथलेश मेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता
		6- सिलवानी	1- श्री मदन सिंह रघुवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता
34	राजगढ़	राजगढ़	1- श्री आलोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता 2- श्री अरुण सातलकर सामाजिक कार्यकर्ता
		1- ब्यावरा	1- श्रीमती निशा भार्गव
		2- नरसिंहगढ़	1- डॉ. ओ.पी. साहू, समाजसेवी
		3- सारंगपुर	1- श्री अनिल दीक्षित, अधिवक्ता
		4- खिलचीपुर	1- श्री कृष्णगोपाल जोगी
		5- जीरापुर	1- श्री श्याम वर्मा, समाजिक कार्यकर्ता
35	रतलाम	रतलाम	1- डॉ. लीला जोशी, चिकित्सक 2- डॉ. अजहर हाशमी, सेवा निवृत्त व्याख्याता
		1-जावरा	1- श्री सूर्यभान कटारिया, अधिवक्ता
		2- सैलाना	1- श्री कातिलाल राठोड, अधिवक्ता
		3- आलोट	1- श्री राजेश मण्डवारिया अधिवक्ता

36	रीवा	रीवा	1- श्री दीपक कुमार तिवारी, अधिवक्ता 2- श्री रफीक मनिहार, अधिवक्ता
		1- मऊगंज	1- श्री राकेश कुमार शुक्ला, अधिवक्ता
		2- त्योथर	1- श्री भागवत प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता
		3- सिरमौर	1- श्री संतोष कुमार पटेल, अधिवक्ता,
		4- हनुमना	1- श्री अनिल तिवारी, अधिवक्ता,
37	सागर	सागर	1- श्रीमती रश्मि ऋतु जैन, अधिवक्ता 2- श्री सतीश चंद्र रावत, अधिवक्ता
		1- रहली	1- श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता
		2- खुरई	1- श्री शिवचरण लाल मेसन,
		3- देवरी	1- श्री उमेश पलिया,
		4- बीना	1- श्री राकेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
		5- गढ़ाकोटा	1- श्री अरुण कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
		6- बण्डा	1- श्री महेश प्रसाद पाण्डेय, से. नि. विद्युत कर्मचारी
38	सतना	सतना	1- श्री आदित्य प्रताप सिंह, अधिवक्ता, 2- श्रीमती सीमा पाठक, अधिवक्ता,
		1- मैहर	1- श्री सुनीदत्त त्रिपाठी अधिवक्ता,
		2-अमरपाटन	1- श्री अलकेश पटेल, अधिवक्ता,
		3-नागौद	1- श्री बृजकिशोर चौधरी अधिवक्ता
		4-उचेहरा	1- श्री प्रवीण कुमार पाठक स्वयंसेवक
		5-चित्रकूट	1- श्री नत्थू प्रसाद पटेल, अधिवक्ता,
		6-रामपुर बघेलान	1- श्री आर.आर. शुक्ला, अधिवक्ता
39	सिहोर	सीहोर	1- श्री सुभाष चौहान, अधिवक्ता 2- श्री राहुल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- आष्टा	1- श्री पल्लव जैन अधिवक्ता
		2-नसरुल्लागंज	1- श्री रमेशचन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक
		3- बुदनी	1- सुश्री शिवानी यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
		4- इछावर	1- श्री अमित गुप्ता, अधिवक्ता
40	सिवनी	सिवनी	1- श्री प्रवीण शाह, सेवा निवृत्त न्यायाधीश 2- श्री छिददीलाल श्रीवास, सामाजिक कार्यकर्ता
		1-लखनादौन	1- श्री लखन डहेरिया, अधिवक्ता
		2-घंसौर	1- श्री उमेश कुमार सैन, अधिवक्ता
		3- केवलारी	1- श्री जगन्नाथ साहू, अधिवक्ता
41	शहडोल	शहडोल	1- श्री रामशंकर तिवारी, अधिवक्ता 2- कु. अंकिता सिंह
		1- ब्योहारी	1- श्री राकेश कुमार केवट, अधिवक्ता
		2- जयसिंहनगर	1- श्री लवकुश गुप्ता, अधिवक्ता
		3- बुढ़ार	1- श्री आजाद सिंह, अधिवक्ता
42	शाजापुर	शाजापुर	1- श्री अनिल आचार्य, अधिवक्ता 2- श्रीमती लाडकुंवर ठाकुर, अधिवक्ता
		1- शुजालपुर	1- श्री मो. हिदायत उल्ला खां अधिवक्ता
		2- आगर	1- श्रीमती संगीता देसाई सामाजिक कार्यकर्ता
		3- सुसनेर	1- श्री भूपेन्द्र सिंह चंद्रावत अधिवक्ता
		4- नलखेड़ा	1- श्री अनिल कुमार जैन, अधिवक्ता

43	श्यापुर	श्यापुर	1- श्रीमती अंजना मारवाडी 2- श्री कैलाश पाराशर
		1-विजयपुर	1- श्री जितेन्द्र अवस्थी
44	शिवपुरी	शिवपुरी	1- श्री शैलेन्द्र गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता 2- कु. श्रद्धा जादौन सामाजिक कार्यकर्ता
		1- करैरा	1- श्री सतीश श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्ता
		2- पिछोर	1- श्री रामेश्वर दयाल पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता
		3- कोलारस	1- श्री प्रदीप कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता
		4- पोहरी	1- श्री कृष्णकुमार जैमिनी, सामाजिक कार्यकर्ता
		5- खनियाधाना	1- श्री जितेन्द्र खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
45	सीधी	सीधी	1- श्रीमती निर्मला सिंह सामाजिक कार्यकर्ता 2- श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
		1- चुरहट	1- श्री विनोद कुमार सिंह अधिवक्ता
		2- मझौली	1- श्री अंजनी कुमार मिश्र, अधिवक्ता
		3- रामपुर नैकिन	1- श्री अनिल सिंह अधिवक्ता
46	सिंगरौली	सिंगरौली	1- श्री रविन्द्र प्रसाद पाण्डेय, अधिवक्ता 2- श्री रमाकर प्रताप सिंह, अधिवक्ता
		1- देवसर	1- श्री संतराम बैस, अधिवक्ता
		2- वैढन	1- श्री अवनीश दुवे, अधिवक्ता
		3- सरई	1- श्री राजेश कुमार सेन, अधिवक्ता
47	टीकमगढ़	टीकमगढ़	1- श्रीमती प्रीति परमार, 2- श्री विनोद कुमार खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- निवाड़ी	1- डॉ. रोहिन राय
		2- जतारा	1- श्री घनश्याम दास अहिरवार,
		3- ओरछा	1- श्री रविन्द्र कुमार तिवारी, सामा. कार्यकर्ता
48	उज्जैन	उज्जैन	1- सुश्री करुणा त्रिवेदी, सेवा निवृत्त न्यायाधीश 2- श्री प्रताप मेहता, म.प्र. रा.अधि. परि. के सदस्य
		1- खाचरौद	1- श्री कैलाश खमौरिया अधिवक्ता
		2- बडनगर	1- श्री डी.एस. पण्डया, अधिवक्ता
		3- महिदपुर	1- श्री एस.के. सोनगरा, अधिवक्ता
		4- तराना	1- श्री दूलेसिंह बडाल, अधिवक्ता
		5- नागदा	1- श्री राजेश तिवारी, अधिवक्ता
49	उमरिया	उमरिया	1- श्री विजय राय, अधिवक्ता 2- श्रीमती प्रतिभा सिंह सेंगर,
		1-विरसिंहपुर पाली	1- श्रीमती अनुपमा मिश्रा
		2- मानपुर	1- श्री अशोक कुमार वर्मा
50	विदिशा	विदिशा	1- श्री प्रभुदयाल यादव, अधिवक्ता 2- श्रीमती दीप्ति खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
		1- गंजबासौदा	1- श्री सुरेन्द्र रघुवंशी (सलोई), अधिवक्ता
		2- सिरोंज	1- श्री मोहन शर्मा, अधिवक्ता
		3- लटेरी	1- श्री रामगुलाम राजौरिया, सामाजिक कार्यकर्ता
		4- कुरवाई	1- श्री हमीद खां मसूरी, अधिवक्ता
		5- शमशाबाद	1- श्री लाखन सिंह जाट, अधिवक्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024

क्रमांक/एफ-25-34/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड N-22°19'18.088" से N-22°19'28.424 उत्तर अक्षांश का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड N-22°19'18.088" से N-22°19'28.424 उत्तर अक्षांश का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया

तथा E-80°03'03.368" से E-80°03'17.025" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया

है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) अनुविभाग सिवनी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

## अनुसूची

वनमण्डल - केवलारी  
वन परिक्षेत्र - केवलारी

जिला - सिवनी  
तहसील - दक्षिण सिवनी वनमंडल

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कंचनवाड़ा (केवलारी)	048	कंचनवाड़ा (केवलारी)	-	300/2	7.960	निजी भूमि	एफ-25-34/2019/10-3 दिनांक 04.07.2019	12.07.2019	उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-04 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-06 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।							
	पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-06 से 08 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।						
योग						7.960	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024

क्र.-एफ-25-34-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-25-34-2019-दस-3, दिनांक 4 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> January 2024

NO./54 /F-25-34/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -

- (A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-22°19'18.088" to N-22°19'28.424" North Latitude and E-80°03'03.368" to E-80°03'17.025" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional officer, (Revenue) Sub Division Seoni to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

### SCHEDULE

Forest Division - Keolari  
Forest Range - Keolari

District - Seoni  
Tehsil - South Seoni forest Division

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanchanwada (Keolari)	048	Kanchanwada (Keolari)	-	300/2	7.960	Private Land	F-25-34-2019/10-3 Dated 04-07-2019	12.07.2019	North- Artificial forest boundary from pillar no. 04 to 06 of protected forest block. East- Artificial forest boundary from pillar no. 03 to 04 of protected forest block.



[illegible]

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**ASHOK KUMAR, Addl. Secy.**

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024

क्रमांक/एफ-25-34/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि : -

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड N-22°13'37.832" से N-22°13'52.119 उत्तर अक्षांश तथा E-79°26'9.588" से E-79°45'45.357" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) अनुविभाग सिवनी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

### अनुसूची

जिला - सिवनी  
तहसील - दक्षिण सिवनी वनमंडल

वनमण्डल - सिवनी  
वन परिक्षेत्र - बंडोल

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	खसरा क्रमांक नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बधा (बंडोल)	20	बधा (बंडोल)	-	40/2	14.58	कंकड़ पत्थर	एफ-05-46/96/दस-3 दिनांक 27.02.1996	24.05.1996	उत्तर:- राजस्व ग्राम बंधाके खसरा नम्बर 38 एवं 39 की राजस्व भूमि और मुनारा क्रमांक 01 से 20 तक। पूर्व:- राजस्व ग्राम 147 बंधा के खसरा नम्बर की राजस्व भूमि और मुनारा क्रमांक 20 से 21 तक।

[illegible]

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार, अपर सचिव.**

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024

क्र.-एफ-25-34-2019-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-25-34-2019-दस-3, दिनांक 4 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार, अपर सचिव.**

Bhopal, the 4<sup>th</sup> January 2024

NO./ 54 /F-25-34/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government here by: -

- (A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-22°13'37.832" to N-22°13'52.119" North Latitude and E-79°26'9.588" to E-79°45'45.357" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional officer, (Revenue) Sub Division Seoni to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

### SCHEDULE

Forest Division - Seoni  
Forest Range - Bandol

District - Seoni  
Tehsil - South Seoni forest Division

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bandha (Bandol)	20	Bandha (Bandol)	-	40/2	14.58	Kankad Patthar	F-05-46-1996/10-3 Dated 27-02-1996	24.05.1996	North- Khasra number of 38 & 39 revenue land of revenue village Bandha and pillar no. 01 to 20. East- Khasra number of 147 revenue land of revenue village Bandha and pillar no. 20 to 21.

[illegible]

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र. 249 -SW-2024

धार, दिनांक 8 जनवरी 2024

मैं प्रियंक मिश्रा, जिला दण्डाधिकारी, धार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक - 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) एव म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)/09/08/ बी-3 दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैठक दिनांक 08-01-2024 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक रुपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला धार के निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थानों/चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ म.प्र. राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किए गए गांव उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए अन्य थानों/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं :-

अनु. क्रमांक	गांव का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है	गांव का वर्तमान थाना/चौकी	गांव को किस थाना/चौकी में पुर्ननिर्धारण किया जाना है
1	ग्राम बडलीपुराकला	थाना गंधवानी	चौकी केशवी थाना अमड़ेरा
2	ग्राम गोलपुरा	थाना गंधवानी	चौकी केशवी थाना अमड़ेरा
3	ग्राम कंजरोटा	थाना सरदारपुर	थाना राजगढ़
4	ग्राम बन्धाव (उकाला )	थाना माण्डव	चौकी उमरबन थाना मनावर
5	ग्राम रणगांव	थाना माण्डव	चौकी उमरबन थाना मनावर
6	ग्राम मालविहार	थाना माण्डव	चौकी उमरबन थाना मनावर
7	ग्राम चिकली	थाना माण्डव	चौकी उमरबन थाना मनावर
8	ग्राम भूरीघाटी	थाना धामनोद	थाना नालछा
9	ग्राम सोडलियापुरा	थाना धामनोद	थाना नालछा
10	ग्राम पीरघाटा	थाना धामनोद	थाना नालछा
11	ग्राम आम्बापुरा	थाना धामनोद	थाना नालछा
12	ग्राम आडाबयडा	थाना धामनोद	थाना नालछा
13	ग्राम भूराकुआ	थाना धामनोद	थाना नालछा

No. 249 -SW-2024.—I Priyank Mishra, District Magistrate Dhar, in accordance with Sub Section(s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 02 of 1974) and in exercise of the powers vested in the District Level committee as per Circular no. F-2 (A)/09/08/B-3, Bhopal, dated 30 July 2010 of Home (Police) Department Bhopal, Government of Madhya Pradesh, and as per the decision taken in the meeting dated 08-01-24, do hereby, partial modify the earlier notification affecting the areas specified in the Schedule to include the following villages of District Dhar by reassigning them to other Police Station/Police Chowki from the point of view of public convenience. The villages mentioned in the Schedule are included in the area of other Police Stations/Police Chowki shown against their names from the date of publication of this notification in Gazette of Madhya Pradesh.

No.	Name of the Village whose boundary is to be redrawn	Current Police Station/ Chowki of the Village	Reassigned Police Station/ Chowki of the Village
1	Village Badlipurakala	Police Station, Gandhwani	Police Chowki keshvi P.S. Amzera
2	Village Golpura	Police Station, Gandhwani	Police Chowki keshvi P.S. Amzera
3	Village Kanjrota	Police Station, Sardarpur	Police Station, Rajgarh (Sardarpur)
4	Village Bandhav (Ukala)	Police Station, Mandu	Police Chowki Umarban P.S. Manawar
5	Village Rangaon	Police Station, Mandu	Police Chowki Umarban P.S. Manawar
6	Village Malvihar	Police Station, Mandu	Police Chowki Umarban P.S. Manawar
7	Village Chikli	Police Station, Mandu	Police Chowki Umarban P.S. Manawar
8	Village Bhurighati	Police Station, Dhamnod	Police Station, Nalchha
8	Village Sodliyapura	Police Station, Dhamnod	Police Station, Nalchha
9	Village Pirghata	Police Station, Dhamnod	Police Station, Nalchha
10	Village Ambapura	Police Station, Dhamnod	Police Station, Nalchha
12	Village Adabayda	Police Station, Dhamnod	Police Station, Nalchha
13	Village Bhurakunwa	Police Station, Dhamnod	Police Station, Nalchha

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंक मिश्रा, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.



## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 10 अगस्त 2023

प्र. क्र. 152-बी-121-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण						धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	मकान का रकबा (हे. में)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
रायसेन	बेगमगंज	कस्बा	346	5.056		परियोजना प्रशासक	बीना सिंचाई परियोजना
		बेगमगंज	428	2.626		बेतवा परियोजना क्रियान्वयन	के अंतर्गत मंडिया
			384	3.003	0.130	इकाई (बीपीआईयू-2)	बाँध से डूब
			385	0.757		क्रमांक-2, राहतगढ़,	प्रभावित
			871/385	0.077		जिला सागर (म. प्र.)	हेतु
			कुल . .	11.519	0.130		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2023

प्र. क्र. 0008-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	राजनगर	बसारी (पूरक)	0.030	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-सिंगरौली-खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन निर्माण परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 1 जनवरी 2024

क्र. भू-अर्जन-43-(अ-82) 2023-24-580.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	सुरजपुरा माल प.ह.नं. 80	2.46	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .		2.46		बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mpvenue.nic.in](http://www.mpvenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-44-(अ-82) 2023-24-581.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	मोहगांव रैयत प.ह.नं. 79	0.20	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .		0.20		बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mpvenue.nic.in](http://www.mpvenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-45-(अ-82) 2023-24-586.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	शहपुरा	फुलवाही रैयत प.ह.नं. 81	38.05	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
कुल . .			38.05		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-46-(अ-82) 2023-24-585.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	शहपुरा	कुसेरा रैयत प.ह.नं. 87	35.58	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
कुल . .			35.58		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-47-(अ-82) 2023-24-584.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	मरवाही रैयत प.ह.नं. 83	79.29	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			79.29	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-48 (अ-82) 23-24-583.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	मटियारी रैयत प.ह.नं. 83	224.61	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			224.61	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-49 (अ-82) 2023-24-582.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	मुण्डी रैयत प.ह.नं. 83	118.66	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			118.66	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 3 जनवरी 2024

क्र. भू-अर्जन-50 (अ-82) 2023-24-587.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	चौरा रैयत प.ह.नं. 30	98.973	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			98.973	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-51 (अ-82) 2023-24-588.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सुबखार रैयत प.ह.नं. 70	2.004	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			2.004	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-52 (अ-82) 2023-24-589.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सालीवाडा रैयत प.ह.नं. 31	42.863	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			42.863	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-53 (अ-82) 2023-24-590.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खाम्ही रैयत प.ह.नं. 30	56.972	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
		कुल . .	56.972	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mpvenue.nic.in](http://www.mpvenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-54 (अ-82) 2023-24-592.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	हिनौता माल प.ह.नं. 42	2.351	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
		कुल . .	2.351	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mpvenue.nic.in](http://www.mpvenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. भू-अर्जन-55 (अ-82) 2023-24-591.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जोगीटिकरिया प.ह.नं. 42	9.613	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			9.613	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-56 (अ-82) 2023-24-593.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	छपरीमाल प.ह.नं. 37	170.711	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
कुल . .			170.711	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-57 (अ-82) 2023-24-594.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खाम्ही माल प.ह.नं. 35	66.560	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . .	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			66.560	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-58 (अ-82) 2023-24-595.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	गांगपुर माल प.ह.नं. 70	12.769	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . .	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			12.769	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 5 जनवरी 2024

क्र. भू-अर्जन-59 (अ-82) 2023-24-609.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मूढिया माल प.ह.नं. 82	0.315	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
		कुल . . 0.315		राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-60 (अ-82) 2023-24-600.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिसवानी रैयत प.ह.नं. 82	105.12	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
		कुल . . 105.12		बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-61 (अ-82) 2023-24-601.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	डोकरघाट प.ह.नं. 82	168.31	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 168.31	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-62 (अ-82) 2023-24-599.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	पंगनिया प.ह.नं. 80	105.74	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 105.74	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-63 (अ-82) 2023-24-598.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	मरहीकछार प.ह.नं. 80	3.94	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . . 3.94	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-64 (अ-82) 2023-24-597.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	शहपुरा	कुटरई माल प.ह.नं. 72	57.66	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . . 57.66	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-65 (अ-82) 2023-24-596.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	शहपुरा	बालपुर प.ह.नं. 82	103.49	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			कुल . . . 103.49		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शहपुरा या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-66 (अ-82) 2023-24-612.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	छिन्दगांव माल प.ह.नं. 30	288.973	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			कुल . . . 288.973		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-67 (अ-82) 2023-24-611.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	विद्यपुर रैयत प.ह.नं. 35	123.021	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 123.021	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-68 (अ-82) 2023-24-610.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मुडियाकला प.ह.नं. 34	152.572	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 152.572	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. भू-अर्जन-69 (अ-82) 2023-24-608.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कुर्कवारा माल प.ह.नं. 34	15.855	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 15.855	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-70 (अ-82) 2023-24-607.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	चौरा माल प.ह.नं. 30	234.204	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 234.204	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-71 (अ-82) 2023-24-605.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कुर्कवारा रैयत प.ह.नं. 34	50.971	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 50.971	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-72 (अ-82) 2023-24-602.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सालीवाडा माल प.ह.नं. 31	50.971	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.
			कुल . . 50.971	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-73 (अ-82) 2023-24-604.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	तहत् प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मुढिया खुर्द प.ह.नं. 31	141.568	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			कुल . . 141.568		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-74 (अ-82) 2023-24-603.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	तहत् प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	छिन्दागांव रैयत प.ह.नं. 30	127.170	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			कुल . . 127.170		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-75 (अ-82) 2023-24-606.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

०		भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
डिण्डौरी	डिण्डौरी	फडकी प.ह.नं. 37	79.350	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			कुल . . 79.350		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) & [www.dindori.nic.in](http://www.dindori.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2023-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	मझगाँवा	निजी भूमि रकबा 7.2410 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा <u>7.2410 हे.</u>	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना.	प्रधानमंत्री फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत बरगी व्यपवर्तन दायी तट की नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-वर्ष 2023-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	सुन्दरा	निजी भूमि रकबा 15.0123 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.9269 हे. कुल रकबा <u>15.9392 हे.</u>	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना.	प्रधानमंत्री फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत बरगी व्यपवर्तन दायी तट की नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2023-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	भिलसाय	निजी भूमि रकबा 6.1816 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.4099 हे. कुल रकबा <u>6.5915 हे.</u>	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना.	प्रधानमंत्री फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत बरगी व्यपवर्तन दायी तट की नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2023-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	फुलदरी	निजी भूमि रकबा 21.947 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.2478 हे. कुल रकबा 23.1948 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना.	प्रधानमंत्री फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत बरगी व्यपवर्तन दायी तट की नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 जनवरी 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-14-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	नौखड़ खुर्द	5.0963	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-15-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	देवरी कला	7.0851	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-16-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	मनकवार	1.9338	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-17-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मझियार	1.7666	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-18-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा के अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराजनगर	नारायणपुर	5.1238	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-19-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रामपुर	ओबरी	4.9170	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं खेरिया पैपखार माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-20-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	खेरिया कोठार	3.6300	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-21-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	खुखुड़ा कोठार	0.3816	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-22-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	खलेसर	6.0577	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रोवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-26-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	मझियार उन्मूलन	4.5958	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रोवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-27-भू-अर्जन-24.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	धवरहरा	4.7938	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-28-भू-अर्जन-24.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	झुसी वीरान	2.3076	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ. मु. मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं रामपुर बाघेलान माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-29-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराजनगर	निपनिया	2.0361	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 3 जनवरी 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-38-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रामपुर बाघेलान	त्यौंधरा नं. 1	3.088	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत सेहरूआ माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-39-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रामपुर बाघेलान	अकौनी कोठार	2.1241	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं लेदास सब माइनर 1 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-40-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रामपुर बाघेलान	उमरी उर्फ शिवराजी	3.707	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के उमरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-41-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	त्योंधरा नं. 2	2.885	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत त्योंधरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-42-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	दीनापुर	2.949	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत दीनापुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-43-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	शाह	3.865	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ टेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-44-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	ताला तलरी	5.324	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-45-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	खुटहा	8.309	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-46-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बांधा	2.383	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत सेहरूआ सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-47-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	सेमरिया	0.912	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रोवा शाखा नहर के अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-48-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	सिलपरी	1.068	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रोवा शाखा नहर के अंतर्गत सेहरूआ माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-49-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	उमरी उर्फ शिवराजी	13.763	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-50-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	खटखरी	6.497	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ. मु.) मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में रीवा शाखा नहर के अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-79-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	राधुराजनगर	करही कोठार	0.039	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा- -सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-80-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	नागौद	बिकरा	1.775	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा- -सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्र. 13852-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धरमपुरी  
(ग) ग्राम—कोठिदा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.9395 हेक्टर

खसरा / कक्ष / प्लॉट / क्र. (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
120/3	0.2968
120/4	0.2667
वन कक्ष क्रमांक 503/172200797001	0.440
वन कक्ष क्रमांक 503/172213957001	0.542
वन कक्ष क्रमांक 503/172213959001	0.214
वन कक्ष क्रमांक 503/172217374002	0.416
वन कक्ष क्रमांक 503/172208980001	0.254
वन कक्ष क्रमांक 504/172227208002	0.510

योग . . 2.9395

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर-खलघाट रोड़ के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्शन के पुर्ननिर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर-धरमपुरी तथा परियोजना निदेशक, परियोजना इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 15 सम्पत हिल्स सहारा सिटी

के सामने, इन्दौर बायपास बिचौली मर्दाना, इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

क्र. 13855-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धरमपुरी  
(ग) ग्राम—भैसाखो खुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.1169 हेक्टर

खसरा क्र. (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
29	0.0958
31/2	0.0211
योग . . 0.1169	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर-खलघाट रोड़ के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्शन के पुर्ननिर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर-धरमपुरी तथा परियोजना निदेशक, परियोजना इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 15 सम्पत हिल्स सहारा सिटी के सामने, इन्दौर बायपास बिचौली मर्दाना, इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 23 दिसम्बर 2023

क्रमांक/12821 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 06/4-8 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

ग्राम :- पाडल्याबना		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	4.154	-	4.154

## अनुसूची(2)

स.क.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	नरेन्द्र सिंह , देवेन्द्रसिंह बलबहारदुर सिंह पिता नाथू सिंह चन्द्रप्रताप सिंह महेन्द्रसिंह रूपेन्द्र सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह भु भंवरी बाई बेवा सुरेन्द्र सिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत	4	0.898	0.200	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	दीलीप सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपूत	11/1/2	0.702	0.012	
3	विजय सिंह पिता महेन्द्र पाल सिंह, मु. मीना कुमारी बेवा महेन्द्रपाल सिंह जाति राजपूत	11/1/1	1.012	0.660	
4	बलबहारदुर सिंह पिता दीलीप सिंह जाति राजपूत	11/2	1.715	0.040	
5	कमल कुंवर पति हरवीर सिंह जाति राजपूत	35/1	0.448	0.280	

6	रोडीलाल पिता नारायण जाति दांगी	61/2	0.316	0.035	
7	राजकुमार सिंह पिता हरिनारायण, उमादेवी पत्नि हरिनारायण सिंह जाति राजपूत	64/1	0.397	0.014	
8	देवेन्द्र सिंह शैलेन्द्र सिंह राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह राज कुवर बेवा रघुवीर सिंह जाति राजपूत	64/2	0.397	0.014	
9	समरथ सिंह पिता राम सिंह जाति राजपूत	64/3	0.397	0.014	
10	समरथ सिंह पिता राम सिंह जाति राजपूत	64/4	0.397	0.014	
11	ब्रजराज सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत	64/5	0.397	0.014	
		143	0.443	0.160	
12	गोविन्द सिंह पिता नवल सिंह राजपूत	135	1.579	0.130	
13	रामकैलाश रामलखन पिता गुलाबचंद मु सौरभबाई बेवा गुलाबचन्द जाति दांगी	128/5	0.278	0.010	
14	बेजनाथ पिता देवीराम जाति दांगी	128/3	0.556	0.030	
		128/4	0.278	0.020	
15	मांगी लाल रामप्रसाद अयोध्या बाई रेशम बाई पिता बंशीलाल जाति दांगी	130/1	1.042	0.080	
16	लक्ष्मीनारायण पिता जयराम जाति दांगी	130/2/3	0.239	0.066	
17	चन्द्रप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी	127/1	0.215	0.068	
		126/1	0.145	0.017	
18	राजेन्द्र सिंह पिता सुल्तान सिंह जाति राजपूत	342/4	0.228	0.035	
		365/7	0.278	0.020	
19	जगमोहन सिंह पिता सुल्तान सिंह जाति राजपूत	365/8	0.405	0.150	
20	कृष्णा बाई पत्नि जगदिश सिंह जाति राजपूत	358/1	0.502	0.120	
21	प्रमोद सिंह उर्फ प्रवीण सिंह पिता मालम सिंह, मु. जतन कुवर बेवा मालम सिंह जाति राजपूत	358/2	0.502	0.107	
22	सुनील कुमार पिता हरि सिंह जाति गाडरी	357/1/4	0.759	0.300	
23	रघुनन्दसिंह, विश्वनाथ सिंह, खुमानसिंह, धीरपसिंह पिता उदयसिंह, प्रेम कुवर, कमलेश कुवर पिता उदयसिंह जाति राजपूत	358/3	0.501	0.135	
24	हरपालसिंह देवेंद्रसिंह पिता भगवतसिंह, गोपालकुंवर बेवा भगवतसिंह सुनिताकुंवर, राजकुमारी पुत्रिया भगवतसिंह जाति राजपूत	3/2/2	1.177	0.120	

रामगंज  
मण्डी से  
भोपाल नई  
बड़ी रेल्वे  
लाईन में  
प्रभावित  
भूमि

25	दुलीचन्द्र देवीसिंह पिता मौजीलाल शांती बाई बेवा मौजीलाल जाति दांगी	13/1	0.443	0.072	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
26	लाल बहादुर सिंह पिता प्रहलाद सिंह जाति राजपूत	30/2	0.775	0.100	
27	मांगीलाल पिता गिरधारी लाल जाति दांगी	31/2	0.392	0.063	
28	रामकैलाश रामलखन पिता गुलाबचंद मु सौरमबाई बेवा गुलाबचन्द जाति दांगी	31/3	0.392	0.350	
29	गजेन्द्र सिंह परतावसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत	34	0.696	0.240	
30	ओमप्रकाश पिता शिवनारायण जाति कुम्हार	61/1/1/3	0.169	0.023	
31	शंकरसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत	63	0.089	0.050	
32	समरथ सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत	85/1	1.265	0.038	
		134	1.151	0.290	
33	मु. पार्वती बाई बेवा नाथूलाल, मांगीलाल, छबीलाल, कैलाश, कान्तीबाई, शेतानबाई, सुशीलाबाई, कौशल्याबाई पिता नाथूलालजाति दांगी	132/2/4	0.506	0.063	
योग	भू-स्वामी-33	38	22.081	4.154	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राज्य नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्रमांक/12823 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 68/32 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

ग्राम :- जामोल्या गणेश		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	2.124	-	2.124

### अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	फूलसिंह पिता लक्ष्मण सुमित्रा बाई पति फूलसिंह जाति चमार	181/1/1/2	1.000	0.052	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	ग्यारसा पिता शंकर गोकल बाई पति ग्यारसा जाति चमार	181/1/1/3	1.000	0.018	
3	बद्रीप्रसाद , नारायण सिंह पिता गंगाराम जाति चमार	181/1/1/4	1.000	0.018	
4	कमलसिंह पिता धनीराम जाति देशवाली	178/3	0.758	0.017	
5	हरीप्रसाद पिता बापूलाल जाति जागडे	178/2/2/3	0.253	0.053	
6	आत्माराम पिता रामप्रसाद जाति देशवाली	195/2/2/1/1	0.400	0.111	
7	श्रीमति रामप्यारीबाई पति प्रेमनारायण जाति दांगी	195/2/2/1/2	0.632	0.058	
8	राजेश पिता कमलसिंह जाति देशवाली	195/2/1/2	0.776	0.310	
9	मुकेश पिता कमलसिंह जाति देशवाली	195/2/1/1	1.076	0.233	
10	प्रहलाद जुगलकिशोर पुरुषोत्तम पिता कालूराम जाति दांगी	201	2.794	0.049	

11	प्रेमनारायण पिता राधाकिशन जाति दांगी	202/2/1	2.385	0.072	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
12	जानकीबाई बेवा प्रेमनारायण शारदाबाई ,मानकुवर बाई पुत्रीया प्रेमनारायण जाति खाती	203/1/1/1	0.253	0.031	
		189/2/1	0.142	0.067	
13	रामनारायण पिता हजारी लाल जाति खाती	203/1/1/2	0.253	0.031	
14	मुकेश देवप्रकाश पिता जगदीश ,संगीता पुत्री जगदीश , सोमाबाई बेवा जगदीश , राधेश्याम मुन्नीबाई , विमलाबाई , सुमनबाई पिता हरिबगश जाति खाती	203/1/2	0.506	0.230	
15	कैलाश पिता गोपीलाल जाति खाती	189/2/2	0.142	0.037	
16	ब्रजकिशोर पिता बापूलाल जाति खाती	203/1/4	0.519	0.367	
17	गुलाबसिंह पिता घीसालाल जाति गाडरी	191/1	1.550	0.047	
18	मुमताज बी पति सैय्यद जकी अहमद, सैय्यद जुबेर अहमद पिता सैय्यद जकी अहमद , शोऐब अहमद ना.ब. पिता सैय्यद जकी अहमद सर माता मुमताजबी पति सैय्यद जकी अहमद जाति मुसलमान	191/2/1	1.815	0.025	
19	हरीप्रसाद पिता बापूलाल जाति जागडे	178/2/2/2	0.253	0.246	
20	नीलेश ,जयेन्द्र पिता नवलसिंह निताबाई बेवा नवलसिंह जाति देशवाली	178/2/2/1	0.253	0.052	
योग	भूस्वामी-20	21	17.760	2.124	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/12825/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 05/2023 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची(1)

ग्राम :- छपरीकलां		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.030	-	0.030

#### अनुसूची(2)

स.क्र.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	गंगाप्रसाद पिता रामलाल जाति देशवाली नि.ग्रा.	244/1	0.442	0.030	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
योग	भू-स्वामी -1	कुल किता 01	0.442	0.030	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्रमांक/12972 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 84/287 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

ग्राम :- कहारपुरा		तहसील :- नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	1.134	-	1.134

## अनुसूची(2)

स.क.	भूस्वामी का नाम	सर्वे न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	अनारबाई पति बद्रीलाल जाति दांगी	21/3/2/1	0.253	0.025	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	लीला बाई पति रामनारायण जाति दांगी	21/3/2/2	0.506	0.085	
3	चंदरलाल पिता छीताराम जाति दांगी	21/1/1	0.759	0.031	
4	मांगीलाल पिता मदनलाल जाति दांगी	21/7	0.658	0.064	
5	जितेन्द्र पिता मोतीलाल जाति धोवी	14/1	1.327	0.050	
6	प्रेमनारायण पिता मांगीलाल जाति धोवी	14/2	1.328	0.060	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
7	गोवर्धन सिंह, रमेशसिंह पिता देवीसिंह, मोहित (न.ब.) पिता महेशसिंह स.र. माता प्रीतिबाई, बेवा महेश, मु.कौशल्या बाई बेवा देवीसिंह जाति गूजर	12	2.453	0.114	
		11	0.202	0.032	
		9	0.240	0.021	
		8	0.582	0.078	
		42	1.303	0.090	
		4/1	0.291	0.080	
		10	0.089	0.050	
8	बापूलाल पिता मदनलाल जाति दांगी	21/2/3	0.291	0.130	
9	कृष्ण गोपाल, कृष्ण वल्लभ, दिनेश पिता रामचरण, सवित्री मोहिनी बाई पुत्री रामचरण जाति धोवी	21/3/5	0.253	0.035	
		5	0.038	0.024	
10	लक्ष्मीनारायण पिता सालगराम जाति तेली	21/2/4	0.152	0.135	
		21/3/6	0.228	0.030	
योग	भू-स्वामी -11	18	10.055	1.134	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2023-24

विदिशा, दिनांक 9 अक्टूबर 2023

प्रारंभिक अधिसूचना  
(देखिए धारा 11)

गंज पटवारी हल्का नं. 44 तहसील गंजबासौदा

बुके समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कोटा बैराज परियोजना क्रिया-व्ययन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा को कोटा बैराज परियोजना अंतर्गत कोटा बैराज निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/344/2018/एम.पी.एस./31/1740/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं कोटा बैराज परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 2350/SEIAA/ भोपाल दिनांक 21/08/2020 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अनुसार ऐसी परियोजना जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग विदिशा जिले के 79 ग्रामों की 20,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसका द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :-
- (2) भूमि का विवरण :-
  1. जिला
  2. तहसील
  3. ग्राम
  4. पटवारी हल्का नं.
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

कोटा बैराज परियोजना

विदिशा

बासौदा

गंज

44

0.500हे.

:: अनुसूची - 01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	शेष रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	संधना पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति यादव पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/2	0.309	0.035	0.274
2	उर्मिलादेवी पत्नी महेश कुमार जाति कुशवाह पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 6343/6351 भाग भूमि स्वामी शेरसिंह पुत्र हरप्रसाद जाति कुशवाह पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 8/6351 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29/1	0.768	0.010	0.758
3	माधुकुमार पुत्र विहारीलाल जाति कुशवाह पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41/1/1/2	1.254	0.010	1.244
4	उमेशमोय पुत्र रामकिशोर मोय जाति कुशवाह पता विदिशा मध्यप्रदेश 5107/5121 भाग भूमि स्वामी प्रीतमसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत पता माडिया पानेया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 14/5121 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41/1/1/1	3.449	0.100	3.349

5	सुरेश हरिसिंह पुत्र श्यामलाल जाति अहिरवार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	42/1	1.254	0.185	1.069
6	सुरेशकुमार पुत्र काशीराम जाति अहिरवार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44	0.512	0.010	0.502
7	भूपतसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 421/1264 भाग भूमि स्वामी कंचन छायरी पत्नी धनीराम छायरी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 421/1264 भाग भूमि स्वामी राजकुमारपुत्रशम्भुसिंह सविताबाई उल्लाराबाई पुत्रियाशम्भुसिंह मुन्नीबाई बेवा शम्भुसिंह समान भाग जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 422/1264 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45	1.264	0.090	1.174
8	कल्लूसिंह भैरोसिंह हरीसिंह सनमानसिंह पिता अमोल सिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54/2/1	0.627	0.010	0.617
9	कल्लूसिंह हरिसिंह भैरोसिंह सनमानसिंह पिता अमोल सिंह समान भाग पता विदिशा मध्यप्रदेश 6709/8545 भाग भूमि स्वामी कंचनबाई बेवा अमोलसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1836/8545 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	52	3.988	0.050	3.938
योग			9 किता	13.425	0.500	12.925

## :: अनुसूची -02::

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	शासकीय भूमि का लगभग (हे.में)	धारा-11 की उपधारा(1) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
विदिशा	गंज बासौदा	गंज	0.500	15.192	अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गंजबासौदा जिला विदिशा	कोटा बैराज परियोजना के बैराज एवं डूब क्षेत्र हेतु।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई वित्तियम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंज बासौदा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रशासक कोटा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंज बासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-0044-अ-82-2023-24

छतरपुर, दिनांक 2 जनवरी 2024

**- उद्घोषणा -**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**- अनुसूची -**

**1. भूमि का वर्णन**

क. जिला— छतरपुर ख. तहसील— बक्सावाहा  
ग. ग्राम— जरा घ. लगभग क्षेत्रफल— 22.0270 है.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
1	राकेश तिवारी पिता नन्हेलाल तिवारी जाति ब्रा	110	0.0360
		112	0.2290
		113	0.2870
		114	0.0280
		116	1.2750
		117/2	0.1140
2	मनकू बेवा सूको जाति लुहार, लीलाधर पुत्र सूको जाति लुहार, नन्दू पुत्र सूको जाति लुहार, किशोरी पुत्र सूको जाति लुहार, हल्काई पुत्र सूको जाति लुहार, रमेश पुत्र भैयन जाति लुहार, रामकृपाल पुत्र भैयन जाति लुहार, चम्पाबाई पुत्री भैयन जाति लुहार, किल्लोबाई पुत्री भैयन जाति लुहार, विद्याबाई पुत्री भैयन जाति लुहार, मुरली पुत्र नन्ने जाति लुहार, गुलाब पुत्र नन्ने जाति लुहार, महेश पुत्र भैयन जाति लुहार, सुमतरानी बेवा भैयन जाति लुहार	111	0.1620
		366	0.0610
		367/1	0.2430
		367/2	0.2430
		367/3	0.2830
		367/4	0.5430
3	पार्वती पुत्री हीरालाल जाति ब्रा	117/1	0.1640
4	गोविन्द पिता हरदास जाति अहीर, महेश पिता हरदास जाति अहीर, श्यामबाई बेवा हरदास जाति अहीर, वारीवहू बेवा गोरे जाति अहीर	126	0.7700
5	परमा पि, लाल्ले राजू पिता मोहन कूराबाई मुल्लीबाई पुत्री मोहन जाति चमार, मुकेश कुमार महेन्द्र कुलू पि, माना सियारानी पति परमा चमार जाति चमार	133	0.0050
		134	0.3620
		135	0.0380
		136	0.3000
6	नन्नी बाई बेवा बिहारीलाल यादव, हरिश्चंद्र पिता बिहारीलाल यादव, चंद्रभान पिता बिहारीलाल यादव	138/1	0.4050
		144/1/1	0.1580
		144/2/1	0.0790
7	शिखा पत्नी विक्रम जाति भार्गव	138/2	0.4530

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्र.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
8	लूली पिता सददू जाति अहीर	140	0.4170
9	बाबूलाल पिता राजाराम जाति अहीर	141	0.5020
		146	0.3120
		147	0.3280
10	दुर्गा पिता बल्लू जाति अहीर	143	1.0840
11	शकर पिता बाबूलाल अहीर, हरीराम पिता बाबूलाल अहीर, कोशलया पुत्री बाबूलाल अहीर, सुनीता पुत्री बाबूलाल अहीर,	144/1/2	0.1580
		144/2/3	0.0790
12	गोविंद पुत्र हरदास अहीर जाति अहीर, महेश पुत्र हरदास अहीर जाति अहीर, श्यामबाई बेवा पुत्र हरदास अहीर जाति अहीर	144/2/2	0.4740
13	महेश पुत्र हरदास जाति अहीर, यामबाई बेवा हरदास जाति अहीर, गोविन्द पुत्र हरदास जाति अहीर	144/3	0.3160
14	बाबूलाल पिता राजाराम जाति अहीर, भैयन पुत्र राजाराम जाति अहीर	145	0.1740
15	चंपालाल पुत्र नत्थू जाति अहीर, हल्कू पुत्र नत्थू जाति अहीर	148	0.2270
		162	0.2550
16	गीताबाई पत्नी सुन्दर जाति अहीर, प्रेमलाल पिता दुर्गा जाति अहीर, सुन्दर पिता दुर्गा जाति अहीर	149	0.3640
		150	0.3360
		151	1.2960
		152	0.1780
		157/2	0.3200
		159	0.0160
		160	0.2850
		161	0.0650
		168	0.1900
		169	0.0350
17	कडोरा पिता गोरेलाल यादव जाति अहीर	153	0.2590
18	भैयन पिता राजाराम जाति अहीर	154	1.2690
		156	0.3440
19	प्रेमलाल पिता दुर्गा जाति अहीर	158	0.3120
20	बाबूलाल पिता राजाराम जाति अहीर	170	0.5270
		171	0.0690
21	विपिन नाबालिक पिता दुर्गा जाति यादव	172	0.5030
22	मुरली गुलाब हि. 1/4 पिता नन्नेभाऊ सुमतरानी बेवा भैयन महेश रमेश रामक्रपाल पिता भैयन चम्पाबाई कल्लोबाई विद्या बाई पुत्री भैयन	173	0.3110
23	भोला पिता भैयन जाति अहीर, हल्के पिता भैयन जाति अहीर	176	0.1100
		177	0.0220
24	दुर्गा पिता बल्लू जाति अहीर	364	1.1880
25	सियारती बेवा चिन्टा जाति सौर, कुलुवा पिता चिन्टा जाति सौर, राधे पिता चिन्टा जाति सौर, हरीराम पिता चिन्टा जाति सौर, हल्के पिता चिन्टा जाति सौर	373	1.7900
26	चम्पा पिता नथुवा जाति अहीर, हल्कू नथुवा जाति अहीर	380	0.4180
		381	0.3230
27	पन्नालाल पिता परवत जाति सौर, रामेश्वर पिता परवत जाति सौर, दुडिया बेवा परवता जाति सौर	383/2	0.9330
कुल योग (है.)		59 किता	22.0270

- जरा लघु सिंचाई तालाब योजना (नहर रहित) के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-भू-अर्जन-प्र.क्र.-0001-अ-82-2020-21-126

मण्डला, दिनांक 2 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची को पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है -

- (1) भूमे का वर्णन  
(क) जिला-मण्डला  
(ख) तहसील - घुघरी  
(ग) ग्राम- 1. ग्राम बानियातारा प.ह.न. 26 एवं ग्राम सुडगांव प.ह.न. 28

ग्राम बानियातारा		
नाम	खसरा नम्बर	भूअर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
1. राज कुमार ,रमेश कुमार , मायादास , बुद्धुदास पिता रामप्रसाद , सुदामाबाई ,कोयली पचली , पुत्री रामप्रसाद	324/1	0.08
2. गुल्लूदास ,बलीदास ,मीरादास पिता गयादास ,राधिका बे , तीरथ ,मीनाबाई ,चमेली बाई ,गुडडीबाई पुत्री तीरथ	324/2	0.08
3. शम्भूदास ,रम्मू दास पिता गोरेदास ,कृष्णा बे हल्केराम ,सुरजना पूत्री हल्केराम सम्पतिया ,फुलिया दस्सोबाई ,फुलवती पिता गोरे दास	324/3	0.06
4. लतीफ पिता गफ्फूर	328/1	0.02
5. शेख कलाम पिता शेख रफीक	328/2	0.02
6. इमरत पिता बाबूलाल	313/2	0.06
7. मुन्नालाल ,मुन्नीबाई पिता जियालाल ,मनिया बेवा जियालाल	293	0.09
8. भगोती पिता लल्लादास	288	0.21
9. इमरतीबाई बे मोतीलाल ,सीताराम ,गुलवसिया ,बिस्सोबाई पिता मोतीलाल	286/1	0.22
10. अमरतिया बे दादुलाल ,गुलाबदास ,रामदास पिता दादुलाल ,गुलवसिया भूरी ,कलिया ,कलावती ,सबिता पिता दादुलाल	274	0.23
योग		1.07
ग्राम सुडगांव		
	खसरा नम्बर	भूअर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
1. कलावती पुत्री त्रिलोक	54/2	0.05
योग		0.05
ग्राम बानियातारा		1.07
ग्राम सुडगांव		0.05
कुल योग		1.12

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बानियातारा जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबाद किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर देखी जा सकती है।

क्र.-भू-अर्जन-0001-अ-82-2020-21-129-0001-अ-82-2023-24

मण्डला, दिनांक 5 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची को पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है -

(1) भूमे का वर्णन

(क) जिला-मण्डला

(ख) तहसील - घुघरी

(ग) ग्राम- 1. ग्राम बरवानी प.ह.न. 60 ग्राम पाटन प.ह.न. 79 एवं ग्राम ढेका प.ह.न. 66

ग्राम बरवानी			
नाम	खसरा नम्बर	भूअर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
1 टीको पिता ओझा, फूलवती पिताओझा, फूला पिता ओझा,	82	0.18	
2 श्यामवती, महंगी पुत्री रीघू	86	0.40	
3 प्रेमसिंह, प्रेमलाल व तामेश्वर फगनी नानी बाई मुन्नी बाई प्रेमवती पुत्री तामेश्वर सतिया बे तामेश्वर	90/1	0.02	
4 कमलसिंह कुमारसिंह, विरसिंह, व सुखू रमली, अनुसुइया पुत्री सुखू विराजी बेवा सुखू	40/3	0.16	
5 हरियारी पिता दुकाली अक्कल सुक्कल व ननकू जाति वेगा ग्राम बरवानी	56	0.54	
6 रामसिंह पिता पनकू, गंगावती, जमनी बाई, लक्ष्मी बाई, गूडडी बाई, उर्फ फूंदरिया	42	0.16	
7 माहे बाई बेवा पंचम सावन, पुसुलाल व पंचम मुन्नी बाई पुत्री पंचम	84	0.30	
8 सोनू / धानू	125/1	0.02	
9 सुब्बलाल / धानू	139	0.02	
		1.80	

ग्राम पाटन			
	नाम	खसरा नम्बर	भूअर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
1	फुन्दरी जो छंगना	562/1	0.02
2	हाठेन बेवा लालमेन, मातु, पंचम, मोती, नन्हेलाल पिता लालमेन	653	0.01
3	बिगरु पिता सुमारी	644	0.04
4	बेसाखु पिता बिष्णु	670	0.03
5	कोपा पिता मुलारु भगोती पिता मुलारु फगनु पिरमु छोटलाल पिता कोपा सिंह	695	0.02
6	कोसी बाई पुत्री ढिमरु	696/1	0.04
7	सरस्वती पुत्री ढिमरु	696/2	0.04
8	मुन्नालाल / ददुवा	698	0.01
9	सुखमन्ती बेवामुंशी हीरालाल पिता मुंशी रुपवंती पुत्री प्रेमलाल	708	0.05
10	टीकाराम पिता पोचा चमरे पुत्री पोचा समारो पुत्री पोचा	806	0.01
11	दुकलू पिता मुलारु	694	0.05
12	देवा पिता छोटा	725/2	0.02
			0.34
ग्राम देकों			
	नाम	खसरा नम्बर	भूअर्जन हेतु
1	बरेदी छतर रामप्रसाद पिता फुन्दी लाल सुकरती चैती पिता फुन्दीलालदोगुन रुपसिंह पिता मोतीलाल	61	0.05
2	जवाहर जमींदार पिता फागू जमना पुत्री फागू रंगो बेवा बहादुर भदिया शैलो पुत्री फागू	59	0.05
3	खेतु, सुखराम पिता मंगला मुलकी बाई पिता मंगला	58/2	0.02
4	सुखीराम पिता कोदू सुखवारी सुखीया सुखनी पिता कोदू	693	0.02
5	केशव पिता मातू	695/1	0.03
6	मंगल पिता चंदु, रामदेन, रामनाथ, शोभराम पिता मंगला जाति गौड	702	0.12
7	हीरालाल पिता पनकू	88/1	0.04
8	भूरी बेवा हरिलाल मुन्नालाल धनलाल पिता हरिलाल द्रोपती पुत्री हरिलाल	88/2	0.02
9	फुन्दीलाल पिता कुवर सेन	88/3	0.02
10	फूलसिंह फगना नन्हेलाल पिता बिहारी	89	0.03
11	फूलसिंह फगना, नन्हेलाल पिता बिहारी	175	0.01
12	रुपसिंह पिता गुद्दा	176	0.01
13	रुपसिंह रुपलाल पिता गुद्दा सुकवारो कलावती पुत्री गुद्दा	179	0.02

14	तेजलाल लालसिंह, परबतिया, भुखिया पिता पंचम नन्ही बेवा पंचम	249	0.01
15	तेजी लाल, भयालाल, रम्मो, गुलारेया, शांती पिता भयालाल	306	0.02
			<b>0.47</b>

गोशवारा	
1. ग्राम बरवानी	<b>1.80</b>
2. ग्राम पाटन	<b>0.34</b>
3. ग्राम देकी	<b>0.47</b>
योग	<b>2.61</b>

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरवानी जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबाद किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mp.revenue.nic.in](http://www.mp.revenue.nic.in) पर देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डॉ. सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-08अ-82-23-243-भू-अर्जन-2023-101

सागर, दिनांक 4 जनवरी 2024

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हा गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : खुरई
3. ग्राम : आसौली
4. पट.ह.नं.- : 39
5. अर्जित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल : 12192.775 वर्ग.मी.

**:: अनुसूची ::**

**डूब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण**

स.क्र	भू-धारक	ख.नं.	रकबा	भूमि पर निर्मित मकान के धारक का नाम	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब का विवरण	क्या प्रभावित कुटुंब को धारा 11 के प्रकाशन के पूर्ववर्ती तीन वर्षों से लगातार निवास है
	3	4	5	6	7	8	12	20
1	मध्य प्रदेश शासन चारागाह	59/1	5.030	चैनसिंह पिता मचलसिंह राजपूत	छत सीमेंट शीट, दीवार पत्थर+ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान	16.790	निरंक	हाँ
					छत कबेलू+खप्पर, दीवार पत्थर+ईट+मिट्टी, फर्श पक्का	35.040		
					छत टीन चद्दर+लकड़ी+पन्नी, दीवार लकड़ी, फर्श कच्चा गौशाला	43.600		
					शौचालय-छत टीन	1.440		
					छत फर्शी दीवार ईट मिट्टी भूसाघर	6.660		
					छत पत्थर की फर्शी, दीवार ईट +मिट्टी	11.470		
					योग:-	115.000		

2					निरंक	0.000	दरयाव राजपूत पुत्र चैनसिंह राजपूत	हो
					योग:-	0.000		
3	मध्य प्रदेश शासन चारागाह	67	0.590	मुन्ना आदिवासी पिता फूलसिंह आदिवासी	छत खप्पर, दीवार पत्थर+मिट्टी कच्चा	14.820	निरंक	हो
					छत टीन दीवार ईट फर्श कच्चा रहवास	20.800		
		89	0.920		छत टीन, दीवार ईट+सीमेंट, दहलान	13.000		
					योग:-	48.620		
4		77	0.090	देवी अहिरवार पिता मनसुख अहिरवार	छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा	13.800	निरंक	हो
					लकड़ी का टपरा	9.200		
					छत सीमेंट शीट दीवार लकड़ी, फर्श कच्चा, दहलान	7.200		
					छत टीन, दीवार पत्थर, फर्श को, फर्श कच्चा गोशाला	19.520		
					शौचालय	1.000		
					योग:-	50.720		
5	आबादी गौवठान	77	0.090	अशोकनानी अहिरवार पति गोपीलाल अहिरवार	छत फर्शी दीवार ईट मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	34.580	निरंक	हो
					छत टीन दीवार ईट मिट्टी फर्श कच्चा। गैरिज	40.040		
					शौचालय छत लकड़ी, दीवार पत्थर।	1.650		
					योग:-	76.270		
6	आबादी गौवठान	89	0.920	गजराज चढ़ार पिता गरीबे चढ़ार	छत खप्पर फर्शी दीवार ईट मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	27.550	निरंक	हो
					छत फर्शी, दीवार ईट की, मिट्टी फर्श कच्चा दहलान	17.400		
					छत टीन, दीवार चार खम्भे, गैरिज	11.655		
					छत फर्शी, चददर, दीवार ईट, ओपन भूसाघर।	21.645		
					छत फर्शी, दीवार फर्शी, फर्श कच्चा, भूसाघर।	19.800		
		67	0.590		शौचालय छत टीन।	1.440		
					योग:-	99.490		
7		89	0.920		निरंक	0.000	रोशनी पिता गजराज चढ़ार	हो
					योग:-	0.000		
8	शासकीय रास्ता	82	0.250	मंदूलाल यादव पिता माखन लाल यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर ईट, फर्श कच्चा भू-तल।	27.200	निरंक	हो
					छत टीन खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर ईट, फर्श फर्शी प्रथम तल।	27.200		
					छत फर्शी पक्का, दीवार ईट, फर्श (गोशाला)	11.520		
					छत शेष, दीवार ईट की, शौचालय	6.250		
					योग:-	72.170		
9	शासकीय रास्ता	82	0.250	श्रीराम यादव पिता माखन लाल यादव	छत फर्शी सीमेंट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का। रहवास	13.800	निरंक	हो
					छत फर्शी सीमेंट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का, भू-तल।	20.603		
					छत फर्शी सीमेंट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का, प्रथम तल।	20.603		
					योग:-	55.005		

10	शासकीय रास्ता	82	0.250	माखन सिंह पिता हरप्रसाद यादव	छत फर्शी , दीवार ईट, सीमेंट की, फर्श पक्का। (बाथरूम)	4.718	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार, ईट फर्श पक्का। (किचिन)	5.550		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार पत्थर ईट मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास।	15.410		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का रहवास।	16.181		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। (गौशाला)	20.480		
					मंदिर पक्का ईट सीमेंट का,	1.875		
					मंदिर का चबूतरा, पत्थर का।	12.543		
					योग:-	76.756		
11					निरंक	0.000	पंचम यादव पिता माखन सींग	हाँ
					योग:-	0.000		
12	शासकीय रास्ता	82	0.250	विक्रम सिंह यादव पिता हरप्रसाद यादव	भू- तल, छत फर्शी पक्का सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का।	17.438	निरंक	हाँ
					प्रथम तल, छत खप्पर, दीवार ईट, फर्श पक्का।	17.438		
					छत फर्शी पक्का सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। दहलान	12.788		
					छत शेष दीवार ईट शाचालय।	1.980		
					योग:-	49.643		
13					निरंक	0.000	हरिकेश यादव पिता विक्रम यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
14	शासकीय रास्ता	82	0.250	राधे यादव पिता विक्रम यादव	छत फर्शी सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	20.063	निरंक	हाँ
					लकड़ी का टपरा गौशाला।	14.250		
					योग:-	34.313		
15	शासकीय रास्ता	82	0.250	सोनू यादव पिता विक्रम यादव	छत फर्शी सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	8.960	निरंक	हाँ
					छत फर्शी सीमेंट दीवार पत्थर पिलर, फर्श पक्का। दहलान	6.300		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार फर्शी फर्श कच्चा गौशाला।	22.440		
					योग:-	37.700		
16	चारागाह	90	0.100	प्रताप सेन पिता मंगल सेन	छत टीन, दीवार ईट, मिट्टी, फर्श कच्चा गौशाला।	17.160	निरंक	हाँ
					छत टीन लकड़ी गैलरी।	8.700		
					छत फर्शी खप्पर, चद्दर, दीवार ईट पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा रहवास।	17.380		
					छत फर्शी, फर्श कच्चा दहलान	14.310		
					लकड़ी का टपरा।	9.450		
					छत चद्दर, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा।	14.520		
					छत खप्पर पन्नी , दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा।	18.000		
					योग:-	99.520		
17					निरंक	0.000	अजय पिता प्रताप सेन	हाँ
					योग:-	0.000		

10	शासकीय रास्ता	82	0.250	माखन सिंह पिता हरप्रसाद यादव	छत फर्शी, दीवार ईट, सीमेंट की, फर्श पक्का। (बाथरूम)	4.718	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार, ईट फर्श पक्का। (किचिन)	5.550		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार पत्थर ईट मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास।	15.410		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का रहवास।	16.181		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। (गौशाला)	20.480		
					मंदिर पक्का ईट सीमेंट का,	1.875		
					मंदिर का चबूतरा, पत्थर का।	12.543		
					योग:-	76.756		
11					निरंक	0.000	पंचम यादव पिता माखन सींग	हाँ
					योग:-	0.000		
12	शासकीय रास्ता	82	0.250	विक्रम सिंह यादव पिता हरप्रसाद यादव	भू- तल, छत फर्शी पक्का सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का।	17.438	निरंक	हाँ
					प्रथम तल, छत खप्पर, दीवार ईट, फर्श पक्का।	17.438		
					छत फर्शी पक्का सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। दहलान	12.788		
					छत शेष दीवार ईट शाचालय।	1.980		
					योग:-	49.643		
13					निरंक	0.000	हरिकेश यादव पिता विक्रम यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
14	शासकीय रास्ता	82	0.250	राधे यादव पिता विक्रम यादव	छत फर्शी सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	20.063	निरंक	हाँ
					लकड़ी का टपरा गौशाला।	14.250		
					योग:-	34.313		
15	शासकीय रास्ता	82	0.250	सोनू यादव पिता विक्रम यादव	छत फर्शी सीमेंट दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	8.960	निरंक	हाँ
					छत फर्शी सीमेंट दीवार पत्थर पिलर, फर्श पक्का। दहलान	6.300		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार फर्शी फर्श कच्चा गौशाला।	22.440		
					योग:-	37.700		
16	चारागाह	90	0.100	प्रताप सेन पिता मंगल सेन	छत टीन, दीवार ईट, मिट्टी, फर्श कच्चा गौशाला।	17.160	निरंक	हाँ
					छत टीन लकड़ी गैलरी।	8.700		
					छत फर्शी खप्पर, चद्दर, दीवार ईट पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा रहवास।	17.380		
					छत फर्शी, फर्श कच्चा दहलान	14.310		
					लकड़ी का टपरा।	9.450		
					छत चद्दर, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा।	14.520		
					छत खप्पर पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा।	18.000		
					योग:-	99.520		
17					निरंक	0.000	अजय पिता प्रताप सेन	हाँ
					योग:-	0.000		



18	आबादी गाँवठान	89	0.92	मुलू चढ़ार पिता अजुद्धी चढ़ार	छत आर सी सी, दीवार ईट की पक्की, फर्श पक्का।	15.275	निरंक	हाँ
					छत आर सी सी, फर्श कच्चा, दहलान।	7.150		
					छत आर सी सी दीवार ईट, फर्श पक्का किचिन।	8.125		
					छत फर्शी, कबेलू, लकड़ी की फर्श कच्चा। गौशाला कंडाघर।	25.220		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर	7.313		
					छत फर्शी टीन, दीवार ईट की, शौचालय+नहानी	3.485		
					योग:-	66.568		
19					निरंक	0.000	जयपाल चढ़ार पिता मूलचंद चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
20					निरंक	0.000	महेश चढ़ार पिता मुलु चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
21	आबादी गाँवठान	89	0.920	सोनू पिता गजराज चढ़ार	छत आर सी सी की+फर्शी, दीवार ईट की, फर्श पक्का।	27.900	निरंक	हाँ
					छत टीन लकड़ी। दहलान	16.650		
					छत फर्शी, दीवार 1 (साइड), फर्श फर्शी कच्चा।	27.900		
					शौचालय, छत शेष, दीवार ईट की।	1.620		
					योग:-	74.070		
22	आबादी गाँवठान	89	0.920	तुलसी चढ़ार पिता आलम चढ़ार	छत खप्पर लकड़ी की, दीवार मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास	15.200	निरंक	हाँ
					छत फर्शी खप्पर, दीवार मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	10.000		
					योग:-	25.200		
23					निरंक	0.000	धूमन सांग तुलसीराम चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
24	आबादी गाँवठान	89	0.920	नंदराम चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ार	छत खप्पर फर्शी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास	24.180	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी, दीवार फर्शी के खंभे, फर्श कच्चा। दहलान।	15.500		
					योग:-	39.680		
25					निरंक	0.000	सौरभ पुत्र नंदराम	हाँ
					योग:-	0.000		
26					निरंक	0.000	पिकी पिता नंदराम	हाँ
					योग:-	0.000		
27	आबादी गाँवठान	89	0.92	देशराज चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	8.330	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, खप्पर, दीवार मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान।	5.513		
					लकड़ी का टपरा।	22.950		
					योग:-	36.793		

28	आबादी गाँवठान	89	0.920	शैलेन्द्र चढार पिता नर्मदा चढार	छत अंग्रेजी खप्पर, दीवार ईट पत्थर की, फर्श कच्चा। रहवास	18.720	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार ईट की, मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	19.080		
					छत टीन+पाटे दहलान फर्श कच्चा।	31.500		
					छत लकड़ी पन्नी गौशाला।	19.250		
					शौचालय।	1.440		
					योग:-	89.990		
29					निरंक	0.000	आरेश चढार पिता नर्मदा प्रसाद	हाँ
					योग:-	0.000		
30	आबादी गाँवठान	89	0.92	नर्मदा प्रसाद चढार पिता गरीबे चढार	छत फर्शी+टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	23.780	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार लकड़ी पन्नी दहलान।	12.180		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, पन्नी की भूसाधर।	24.360		
					योग:-	60.320		
31	आबादी गाँवठान	89	0.920	सबरसींग पिता तुलसीराम चढार	छत फर्शी, दीवार ईट+सीमेंट की, फर्श कच्चा। रहवास	24.375	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी, पन्नी की। दहलान	21.450		
					छत खप्पर फर्शी, दीवार ईट की, फर्श कच्चा।	18.200		
					शौचालय छत टीन।	1.440		
					योग:-	65.465		
32					निरंक	0.000	ठाकुरदास चढार पिता सबरसींग चढार	हाँ
					योग:-	0.000		
33	आबादी गाँवठान	89	0.92	गोलू चढार पिता सबरसींग	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी की फर्श कच्चा। रहवास	16.640	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी पन्नी की, फर्श कच्चा दहलान।	13.000		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	12.410		
					छत टीन दहलान।	12.000		
					योग:-	54.050		
34	आबादी गाँवठान	89	0.92	संतोष चढार पिता परमानंद चढार	छत गाटर फर्शी, दीवार ईट, मिट्टी की फर्श कच्चा। रहवास	21.080	निरंक	हाँ
					छत टीन, फर्श कच्चा दहलान।	14.880		
					छत टीन, दीवार ईट (शौचालय)	1.495		
					छत अंग्रेजी खप्पर, दीवार ईट मिट्टी (किचिन)	15.120		
					छत खप्पर, दीवार लकड़ी, गौशाला।	10.080		
					छत टीन खप्पर, दीवार ईट मिट्टी पत्थर, गौशाला।	7.350		
					योग:-	70.005		
35					निरंक	0.000	रामकुमार पुत्र संतोष चढार	हाँ
					योग:-	0.000		
36					निरंक	0.000	नेहा पुत्री संतोष चढार	हाँ
					योग:-	0.000		

37	आबादी गाँवठान	89	0.92	सीताराम चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार	छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी की फर्श कच्चा रहवास।	19.380	निरंक	हाँ
					छत टीन, पन्नी की, दीवार ईट मिट्टी की, फर्श कच्चा दहलान।	15.390		
					छत लकड़ी पन्नी की गौशाला।	16.120		
					छत टीन शौचालय।	1.440		
					योग:-	52.330		
38	आबादी गाँवठान	89	0.920	कमल चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार	छत टीन, पन्नी की, दीवार लकड़ी की, फर्श कच्चा। गौशाला।	15.500	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास	22.950		
					छत सीमेंट शीट, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा (किचिन)	12.150		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी की , फर्श कच्चा। रहवास	13.770		
					छत लकड़ी पन्नी दहलान।	7.290		
					छत लकड़ी का टपरा।	8.370		
					छत टीन शौचालय कच्चा।	1.820		
					योग:-	81.850		
39					निरंक	0.000	देवेन्द्र चढ़ार पिता कमल चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
40					निरंक	0.000	बबीता चढ़ार पिता कमल चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
41	आबादी गाँवठान	89	0.92	राजेन्द्र चढ़ार पिता कमल चढ़ार	छत टीन, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	23.120	निरंक	हाँ
					फर्शी- पत्थर का मंदिर	4.600		
					योग:-	27.720		
42	आबादी गाँवठान	89	0.92	रामसेवक पिता ललजू आदिवासी	छत चद्दर, दीवार ईट, सीमेंट की, फर्श कच्चा। रहवास	22.345	निरंक	हाँ
					किचिन छत चद्दर, दीवार ईट, सीमेंट की, फर्श कच्चा।	9.300		
					शौचालय छत टीन	1.440		
					छत लकड़ी पन्नी दीवार मिट्टी, फर्श कच्चा। भण्डारगृह	36.960		
					छत लकड़ी- पन्नी दहलान।	22.080		
					योग:-	92.125		
43					निरंक	0.000	मलखान पिता रामसेवक	हाँ
					योग:-	0.000		
44	आबादी गाँवठान	89	0.920	राजभानु सहरिया पिता तेजसिंह सहरिया	छत टीन, दीवार, ईट सीमेंट की फर्श कच्चा। रहवास	33.580	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी पन्नी दहलान।	20.440		
					लकड़ी का छत गौशाला।	13.260		
					योग:-	67.280		
45	आबादी गाँवठान	89	0.92	गुड्डा पिता कुदरु आदिवासी	छत खप्पर पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	25.200	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा।	14.788		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास	17.578		
					योग:-	57.565		

46					निरंक	0.000	नंदन पुत्र गुड्डा आदिवासी	हाँ
					योग:-	0.000		
47	आबादी गाँवठान	89	0.920	सूरज सींग पिता गुड्डा आदिवासी	छत सीमेंट शीट, दीवार-पत्थर मिट्टी, फर्श-कच्चा	14.400	निरंक	हाँ
						14.400		
48	आबादी गाँवठान	89	0.920	2. टीकाराम पिता गुड्डा आदिवासी	छत सीमेंट शीट, दीवार-पत्थर मिट्टी, फर्श-कच्चा	14.000	निरंक	हाँ
					योग:-	14.000		
49	आबादी गाँवठान	89	0.92	रामू आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी	छत-लकड़ी+पन्नी, दीवार-ईट, फर्श-कच्चा रहवास	11.550	निरंक	हाँ
					छत-फर्शी, दीवार-ईट, फर्श-कच्चा रहवास	11.900		
					छत-सीमेंट शीट, दीवार-ईट किचिन	5.758		
					छत-सीमेंट शीट, दहलान	5.875		
					योग:-	35.083		
50	आबादी गाँवठान	89	0.920	लालचंद आदिवासी पिता गोविंद आदिवासी	छत-लकड़ी+पन्नी, दीवार-मिट्टी+पत्थर, फर्श-कच्चा रहवास	11.550	निरंक	हाँ
					योग:-	11.550		
51	आबादी गाँवठान	89	0.92	गोविंद आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी	छत-सीमेंट शीट+ खप्पर, दीवार-पत्थर मिट्टी रहवास। गोशाला लकड़ी की।	26.768	निरंक	हाँ
					योग:-	16.775		
52					निरंक	0.000	चालीराजा पिता गोविन्द सौर	हाँ
					योग:-	0.000		
53	आबादी गाँवठान	89	0.92	तेजसिंह सहरिया पिता दुन्दे सहरिया	छत-फर्शी+खप्पर, दीवार-ईट+मिट्टी, फर्श-पक्का	16.120	निरंक	हाँ
					छत-फर्शी+खप्पर, दीवार-ईट+मिट्टी, फर्श-पक्का	19.800		
					छत-फर्शी, दीवार-पत्थर+मिट्टी, फर्श-पक्का	11.250		
					छत-टीन, शौचालय+नहानी पक्का	4.480		
					छत-फर्शी, दीवार-ईट+मिट्टी, फर्श-पक्का	15.750		
					छत-फर्शी, दीवार-ईट+मिट्टी, फर्श-पक्का	13.760		
					लकड़ी का टपरा। गोशाला	11.780		
					तुलसी का चबूतरा।	0.855		
					योग:-	93.795		
54					निरंक	0.000	उमेश सौर तेज सिंह सौर	हाँ
					योग:-	0.000		
55	आबादी गाँवठान	89	0.92	नरेन्द्र आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी	छत खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी+दहलान	12.650	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार ईट +मिट्टी की फर्श पक्का। रहवास	22.550		
					योग:-	35.200		

56	आबादी गाँवठान	89	0.92	रामदयाल आदिवासी पिता दुन्दे आदिवासी	छत गाटर फर्शी, दीवार ईट, सीमेंट की, फर्श पक्का। किचिन	6.440	निरंक	हाँ
					छत गाटर, फर्शी, फर्श पक्का दहलान।	6.300		
					छत गाटर फर्शी, दीवार ईट, सीमेंट की, फर्श पक्का। रहवास	15.938		
					छत लकड़ी + फर्शी, गौशाला।	9.375		
					छत फर्शी शौचालय।	3.063		
					योग:-	41.115		
57	आबादी गाँवठान	89	0.920	नरेश आदिवासी पिता बृजलाल आदिवासी	छत फर्शी, दीवार ईट+मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास	10.540	निरंक	हाँ
					योग:-	10.540		
58	आबादी गाँवठान	89	0.92	रविलाल आदिवासी पिता कुदरु आदिवासी	छत खप्पर, दीवार मिट्टी की किचिन।	16.800	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार मिट्टी की। रहवास	19.338		
					छत लकड़ी खप्पर की दहलान।	22.523		
					लकड़ी की गौशाला।	9.500		
					योग:-	68.160		
59	आबादी गाँवठान	89	0.920	गुलाब आदिवासी पिता जालम आदिवासी	छत लकड़ी की पन्नी, दीवार लकड़ी, फर्श कच्चा। दहलान	15.500	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	17.825		
					छत खप्पर+टीन, दीवार मिट्टी पत्थर, फर्श कच्चा। रहवास	40.300		
60					योग:-	73.625		
					निरंक	0.000	संदीप पिता प्रवेश आदिवासी	हाँ
					योग:-	0.000		
61	आबादी गाँवठान	89	0.920	रंजन सींग आदिवासी पिता गुलाबसींग आदिवासी	छत टीन लकड़ी पन्नी, दीवार मिट्टी की गौशाला।	30.750	निरंक	हाँ
					छत टीन दहलान।	7.395		
					छत टीन+खप्पर, दीवार मिट्टी+पत्थर की, फर्श कच्चा। रहवास	14.645		
					छत टीन+दीवार मिट्टी+पत्थर की, फर्श कच्चा भूसाघरं।	7.830		
					लकड़ी का टपरा गौशाला।	14.000		
					छत पन्नी की, शौचालय।	1.440		
					योग:-	76.060		
62	आबादी गाँवठान	89	0.920	मोहन आदिवासी पिता कुब्दीलाल आदिवासी	छत फर्शी+खप्पर, दीवार पत्थर के पिलर, दहलान।	5.100	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	9.435		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट शौचालय।	1.440		
					योग:-	15.975		
63	आबादी गाँवठान	89	0.920	संतोष आदिवासी पिता मोहन आदिवासी	छत टीन, दीवार ईट+सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	12.580	निरंक	हाँ
					छत फर्शी+ टीन, दीवार ईट फर्श कच्चा। किचिन	6.800		
					योग:-	19.380		

64	चारागाह	90	0.1	मुकेश सेन पिता मंगल सेन	छत फर्शी+ दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	9.100	निरंक	हाँ
					छत फर्शी+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की फर्श कच्चा। किचिन	15.600		
					छत खप्पर, फर्शी दहलान।	9.263		
					छत फर्शी+सीमेंट, दीवार ईट सीमेंट पिलर, फर्श फर्शी। रहवास	17.670		
					छत फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	25.520		
					छत टीन, खप्पर, दीवार मिट्टी पत्थर की, फर्श कच्चा।	7.600		
					छत खप्पर, दीवार मिट्टी पत्थर की, फर्श कच्चा भूसाधर।	18.870		
					छत खप्पर फर्शी, दीवार लकड़ी दहलान, फर्श कच्चा दहलान।	3.515		
					शौचालय पक्का।	1.440		
					योग:-	108.578		
65					निरंक	0.000	आरती सेन पिता मुकेश सेन	हाँ
					योग:-	0.000		
66	चारागाह	90	0.1	हीरालाल आदिवासी पिता मोहन आदिवासी	छत खप्पर, दीवार मिट्टी पत्थर, फर्श कच्चा। रहवास	19.610	निरंक	हाँ
					छत खप्पर पन्नी, दीवार, ईट मिट्टी फर्श कच्चा। दहलान	10.600		
					लकड़ी की छत, गौशाला।	13.680		
					योग:-	43.890		
67	चारागाह	90	0.1	केशरबाई पति शिबू अहिरवार	छत खप्पर,+ सीमेंट शीट, दीवार मिट्टी पत्थर, फर्श कच्चा दहलान।	16.590	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार मिट्टी पत्थर, फर्श कच्चा रहवास।	33.180		
					लकड़ी का टपरा गौशाला।	21.600		
					छत टीन, दीवार ईट, शौचालय।	1.440		
					योग:-	72.810		
68					निरंक	0.000	शिवचरण पुत्र शिबू अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
69	चारागाह	90	0.100	बाबूलाल आदिवासी पिता मुन्नालाल आदिवासी	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	19.978	निरंक	हाँ
					लकड़ी का टपरा गौशाला।	13.455		
					योग:-	33.433		
70	चारागाह	90	0.100	बेटीबाई पति मुन्नालाल आदिवासी	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	10.523	निरंक	हाँ
					योग:-	10.523		
71					निरंक	0.000	प्रीतम पिता मुन्नालाल आदिवासी	हाँ
					योग:-	0.000		
72	चारागाह	90	0.100	जमनाबाई आदिवासी पति हलकई आदिवासी	लकड़ी, पन्नी का टपरा।	22.790	निरंक	हाँ
					लकड़ी, पन्नी की दहलान।	9.540		
					योग:-	32.330		

73					निरंक	0.000	पदम आदिवासी पुत्र जमनाबाई	हाँ
					योग:-	0.000		
74					निरंक रंजन	0.000	नवनीतराम आदिवासी पिता हल्केई	हाँ
					योग:-	0.000		
75	चारागाह	92	0.32	सुरेन्द्र आदिवासी पिता गुलाब आदिवासी	छत लकड़ी पन्नी, दहलान	25.500	निरंक	हाँ
					छत टीन खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	20.790		
					छत टीन लकड़ी, फर्श कच्चा दहलान।	9.180		
					छत टीन दीवार मिट्टी, फर्श कच्चा, दहलान।	11.220		
					छत टीन दीवार मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास।	20.910		
					योग:-	87.600		
76	चारागाह	92	0.320	बबलू अहिरवार पिता शिबू अहिरवार	छत फर्श, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	28.080	निरंक	हाँ
			0.100		छत सीमेंट शीट, दीवार ईट मिट्टी, दहलान।	15.840		
					लकड़ी का टपरा।	10.658		
					छत खप्पर, दीवार ईट मिट्टी सीमेंट, फर्श कच्चा।	10.950		
					योग:-	65.528		
77					निरंक	0.000	राहुल पुत्र बबलू	हाँ
					योग:-	0.000		
78	आबादी गाँवठान	220	0.03	बादल सिंह पिता जगन आदिवासी	छत खप्पर, फर्श, टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	40.950	निरंक	हाँ
					छत सीमेंट शीट, दहलान फर्श कच्चा।	7.900		
					छत फर्श, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा।	17.680		
					छत फर्श, दीवार ईट, शौचालय	3.200		
					योग:-	69.730		
79					निरंक	0.000	जगन आदिवासी पिता बकुदू	हाँ
					योग:-	0.000		
80	आबादी गाँवठान	220	0.03	संतोष सौर पिता जगन सौर	छत खप्पर, सीमेंट शीट, दीवार ईट मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	24.420	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार ईट + मिट्टी दहलान।	13.875		
					छत लकड़ी टीन दहलान फर्श कच्चा।	17.380		
					योग:-	55.675		
81					निरंक	0.000	अभिषेक पुत्र जगन सौर	हाँ
					योग:-	0.000		

82	शासकीय	222	0.08	बलराम पिता चरणसींग यादव	छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट फर्श पक्का। (एक तरफ पत्थर की दीवार)।	23.800	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, टीन, दीवार मिट्टी, पत्थर, फर्श कच्चा। रहवास	18.630		
					छत खप्पर, पन्नी, दीवार मिट्टी, पत्थर, फर्श कच्चा भूसाघर।	20.000		
					छत फर्शी, दीवार मिट्टी, पत्थर, फर्श कच्चा दहलान।	4.750		
					छत खप्पर, दीवार मिट्टी, पत्थर, फर्श कच्चा गौशाला।	17.750		
					छत फर्शी, दीवार ईट, शौचालय।	4.095		
					योग:-	89.025		
83					निरंक	0.000	नेहा पुत्री बलराम	हाँ
					योग:-	0.000		
84					निरंक	0.000	रितिका पुत्री बलराम	हाँ
					योग:-	0.000		
85	शासकीय	222	0.08	रामसखी पति चरणसींग (फौत) बारिस 1- रामविशाल पिता चरणसींग 2- बलराम पिता चरणसींग	छत फर्शी, दीवार मिट्टी, पत्थर, फर्श कच्चा दहलान।	20.520	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, टीन, दीवार मिट्टी, पत्थर, फर्श कच्चा। रहवास	17.250		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा भूसाघर।	11.250		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, गौशाला।	15.300		
					योग:-	64.320		
86	शासकीय	240	0.1	श्रीराम सेन पिता फूलसिंह सेन	छत फर्शी खप्पर, दीवार ईट सीमेंट फर्श कच्चा। रहवास	24.850	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार ईट सीमेंट फर्श कच्चा दहलान।	17.040		
					छत फर्शी खप्पर, टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर	30.600		
					लकड़ी का टपरा।	10.800		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार फर्शी पिलर गौशाला।	16.450		
					योग:-	99.740		
87					निरंक	0.000	सुरेन्द्र सेन पिता श्री राम सेन	हाँ
					योग:-	0.000		
88					निरंक	0.000	अमिताभ सेन पिता श्री राम	हाँ
					योग:-	0.000		
89	चारागाह	240	0.100	बबलू यादव पिता पन्नालाल यादव	छत गाटर फर्शी, सी सी दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का।	21.000	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श कच्चा।	19.600		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। किचिन	8.625		
					छत सीमेंट शीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय, नहानी।	3.500		
					छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी ईट, फर्श कच्चा कण्डाघर।	13.000		
					छत टीन+लकड़ी, दहलान फर्श कच्चा।	7.290		
					जीने के नीचे दीवार ईट कमरा।	3.375		
					पक्का जीना।	5.500		
					योग:-	81.890		



90	चारागाह	240	0.100	प्रताप पिता शिबू अहिरवार	छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट फर्श पक्का। रहवास	32.000	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार ईट सीमेंट शौचालय।	2.580		
					योग:-	34.580		
91	चारागाह	240	0.10	कैलाश पिता शिबू (फौत) बारिस 1- गिरजा अहिरवार पत्नि कैलाश अहिरवार 2- अंकिता नाबा. पिता कैलाश 3- नृत्या नाबा. पिता कैलाश 4- नायरा नाबा. पिता कैलाश	छत फर्शी खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	21.285	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	13.365		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	21.285		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	13.365		
					योग:-	69.300		
92	चारागाह	240	0.1	शिबू अहिरवार पिता सोमत अहिरवार	छत फर्शी खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गोशाला	21.230	निरंक	हाँ
					छत खप्पर लकड़ी दहलान।	9.396		
					छत टीन, दीवार ईट शौचालय।	2.580		
					योग:-	33.206		
93					निरंक	0.000	संतोष पुत्र शिबू	हाँ
					योग:-	0.000		
94	आबादी गौवठान	249	0.02	शोभाराम यादव पिता भूरे यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर, फर्श कच्चा। रहवास	24.960	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर, फर्श कच्चा। दहलान	22.620		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	11.280		
					छत लकड़ी+टीन +खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	29.000		
					छत फर्शी, दीवार लकड़ी+पत्थर, फर्श कच्चा भूसाघर।	5.805		
					छत फर्शी+पन्नी, दीवार पाटे फर्श कच्चा गोशाला।	19.544		
					छत टीन शौचालय।	1.440		
					योग:-	114.649		
95					निरंक	0.000	महेश पुत्र शोभाराम यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
96	आबादी गौवठान	249	0.02	नारायण यादव पिता शोभाराम यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का। रहवास	22.100	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का। दहलान	19.720		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी+लकड़ी फर्श पक्का दहलान।	11.890		
					छत फर्शी, खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर।	9.828		
					छत लकड़ी नहानी।	6.960		
					छत लकड़ी पन्नी, गोशाला।	19.197		
					छत फर्शी, दीवार ईट, सीमेंट।	0.000		
					योग:-	89.695		

97	आबादी गाँवठान	376	1.690	त्रिलोकसिंह यादव पिता मुंशी लालयादव दीवार	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	17.400	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार पत्थर के चौर, फर्श कच्चा।	11.748		
					छत खप्पर, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। किचिन	27.375		
					छत गाटर फर्शी, दीवार ईट, फर्श पक्का। रहवास	31.875		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, गौशाला।	22.120		
					जीना आर सी सी।	3.510		
					छत टीन शौचालय।	4.133		
					योग:-	118.160		
98	आबादी गाँवठान	376	1.69	विष्णुप्रसाद यादव पिता तुलाराम यादव	छत खप्पर+ दीवार पत्थर, फर्श कच्चा। किचिन	8.000	निरंक	हाँ
					छत पाटे+लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर	34.880		
					पत्थर मिट्टी का चबूतरा।	7.068		
					छत टीन खपरा लकड़ी, फर्श फर्शी दहलान।	4.830		
					योग:-	54.778		
99	आबादी गाँवठान	376	1.690	हरिओम पिता विष्णुप्रसाद यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	37.720	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। किचिन	20.930		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। कमरा	8.840		
					छत फर्शी, दीवार चौरा दहलान।	13.000		
					छत फर्शी दीवार ईट (पक्का) नहानी	2.300		
					पत्थर ईट का शंकर जी का चबूतरा।	1.000		
					योग:-	83.790		
100	आबादी गाँवठान	376	1.69	रामकरन यादव पिता विष्णुप्रसाद यादव	छत, खप्पर, दीवार पत्थर, फर्श कच्चा। रहवास	42.720	निरंक	हाँ
					छत फर्शी खप्पर, दीवार ईट मिट्टी के पिलर फर्श कच्चा। दहलान।	28.800		
					छत सीमेंट शीट, दीवार ईट के सपोर्ट, फर्श फर्शी। दहलान	22.350		
					छत टीनसेट (सीमेंट) दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	13.640		
					छत टीनसेट (सीमेंट) दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	54.510		
					छत फर्शी, दीवार ईट, फर्श पक्का। शौचालय	2.300		
					जीना।	1.350		
					योग:-	165.670		
101					निरंक	0.000	प्राची पिता रामकरन	हाँ
					योग:-	0.000		
102					निरंक	0.000	अमन पिता रामकरन	हाँ
					योग:-	0.000		
103	आबादी गाँवठान	376	1.69	बृजमोहन यादव पिता चुन्नीलाल यादव	छत आर सी सी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का। (भू-तल)	42.240	निरंक	हाँ
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट फर्श पक्का। हाल	21.000		
					छत खप्पर फर्शी, दीवार ईट सीमेंट की, फर्श पक्का। (प्रथम तल)	21.560		

					छत लकड़ी टीन सेट, दीवार ईट +पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा गौशाला+भूसाघर।	19.200		
					छत जीना दीवार ईट।	1.995		
					जीना ईट का।	5.850		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट शौचालय।	1.350		
					योग:-	113.195		
104					निरंक	0.000	कुसुमरानी पति युनीलाल यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
105	आबादी गौवठान	376	1.69	रामेश्वर यादव माता कुसुमरानी यादव	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	22.140	निरंक	हाँ
					खण्डहर।	20.025		
					छत लकड़ी पन्नी गौशाला।	15.300		
					शौचालय पक्का।	1.560		
					योग:-	59.025		
106	आबादी गौवठान	376	1.69	मूरत सिंह यादव पिता रामकिशन यादव	छत गाटर फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श कच्चा। रहवास (भू-तल)	17.400	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार ईट, फर्श कच्चा पक्का। स्टोर रूम (प्रथम तल)	17.400		
					छत पन्नी टीन, फर्श कच्चा।	9.450		
					वहलान			
					छत लकड़ी पन्नी, फर्श कच्चा।	24.800		
					भूसाघर			
					छत लकड़ी पन्नी, गौशाला गैरिज।	73.980		
					शौचालय पक्का। छत टीन	2.730		
					योग:-	145.760		
107	आबादी गौवठान	376	1.690	रामकिशन यादव पिता भूरे यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा। (भू-तल)	39.000	निरंक	हाँ
		90	0.100		छत टीन+खप्पर दीवार ईट+मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास (प्रथम तल)	39.000		
					छत फर्शी +खप्पर दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा।	21.060		
					वहलान			
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास	22.500		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	15.000		
					योग:-	136.560		
108					निरंक	0.000	रामफल यादव पिता रामकिशन	हाँ
					योग:-	0.000		
109					निरंक	0.000	रमाकांत यादव पिता रामकिशन	हाँ
					योग:-	0.000		
110	आबादी गौवठान	376	1.690	गजानंद प्रसाद तिवारी पिता गजानंद तिवारी (फौत) बारिस 1- पत्नि अतुलरानी उर्फ वतीबाई पत्नि स्व. गजानंद प्रसाद तिवारी, 2- राजेन्द्र तिवारी पिता गजानंद तिवारी	छत फर्शी, बीम, दीवार ईट, फर्श कच्चा। रहवास	36.595	निरंक	हाँ
					छत फर्शी शौचालय।	2.868		
					योग:-	39.463		

111	आबादी गाँवठान	376	1.690	राजेन्द्र तिवारी पिता गजानंद तिवारी	छत खप्पर दीवार ईट की, फर्श कच्चा। रहवास	11.600	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, +गाटर दीवार ईट की, फर्श पक्का। रहवास	13.000		
					शौचालय पक्का।	1.440		
					योग:-	26.040		
112	आबादी गाँवठान	376	1.690	शिवनारायण यादव पिता धीरज यादव	छत फर्शी+ स्लेब, दीवार ईट,+सीमेंट फर्श पक्का। रहवास (भू-तल)	37.400	निरंक	हाँ
					छत फर्शी+ स्लेब, दीवार ईट,फर्श पक्का। रहवास (प्रथम तल)	8.215		
					योग:-	45.615		
113	आबादी गाँवठान	376	1.69	गोविन्द यादव पिता धीरज यादव	छत फर्शी+ स्लेब, दीवार ईट, फर्श कच्चा। रहवास+भूसाघर	51.975	निरंक	हाँ
					जीना पत्थर का।	1.000		
					योग:-	52.975		
114	आबादी गाँवठान	376	1.69	धीरज यादव पिता रामसहाय यादव	छत फर्शी, दीवार ईट, फर्श पक्का। रहवास	10.010	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार ईट, फर्श पक्का। रहवास	10.010		
					छत अग्रेजी खप्पर, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का (रहवास)	46.200		
					छत फर्शी, स्लेब, दीवार ईट, फर्श पक्का। किचिन	9.938		
					छत पन्नी लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला	24.070		
					जीना।	1.000		
					योग:-	101.228		
115					निरंक	0.000	ओमप्रकाश यादव पिता धीरज	हाँ
					योग:-	0.000		
116	आबादी गाँवठान	376	1.69	नरेश यादव पिता वीरसिंह यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास (भू-तल)	25.308	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, फर्श कच्चा दहलान	4.200		
					छत खप्पर, दीवार ईट +सीमेंट फर्श पक्का। (प्रथम-तल)	23.310		
					योग:-	52.818		
117	आबादी गाँवठान	376	1.69	वीरसिंह यादव पिता नाथूराम यादव	छत फर्शी+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, भूसाघर।	28.635	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, फर्श कच्चा दहलान	4.418		
					छत फर्शी फर्श कच्चा दहलान किचिन	4.485		
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का।	46.900		
					योग:-	84.438		
118					निरंक	0.000	प्रद्युम कुमार पुत्र वीरसींग यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
119	आबादी गाँवठान	376	1.69	शेरसिंह पिता लक्ष्मण सिंह यादव	छत खप्पर पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास+भूसाघर	17.280	निरंक	हाँ
					योग:-	17.280		
120					निरंक	0.000	रोहित यादव पिता शेरसिंह	हाँ
					योग:-	0.000		

121					निरंक	0.000	भारती यादव पिता शेरसिंह	हाँ
					योग:-	0.000		
122	आबादी गौवठान	376	1.69	बदनसिंह यादव पिता लक्ष्मणसिंह यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा भू-तल	18.000	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, , दीवार पत्थर मिट्टी फर्श फर्शी, प्रथम तल	18.000		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा	17.850		
					छत फर्शी, फर्श कच्चा। दहलान	4.680		
					योग:-	58.530		
123					निरंक	0.000	कमल पुत्र बदनसिंह यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
124					निरंक	0.000	राहुल पुत्र बदनसिंह यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
125	आबादी गौवठान	376	1.69	देवाराम तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी	छत सीमेंट शीट, दीवार पत्थर मिट्टी, दुकान	8.680	निरंक	हाँ
					छत चददर, फर्श कच्चा, दहलान	7.440		
					छत सीमेंट शीट, दीवार लकड़ी दहलान पशुशाला।	14.500		
					छत सीमेंट शीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा पशुशाला	19.840		
					योग:-	50.460		
126	आबादी गौवठान	376	1.69	जयराम यादव पिता भूरे यादव	छत स्लेब+फर्शी, दीवार ईट, फर्श कच्चा किचिन।	22.620	निरंक	हाँ
		92	0.32		जीना पत्थर का।	1.760		
					भू-तल छत स्लेब+फर्शी, दीवार ईट, फर्श कच्चा रहवास	30.240		
					छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास प्रथम तल	28.800		
					छत स्लेब+फर्शी, दहलान।	13.680		
					जीना पत्थर का।	0.855		
					छत स्लेब+फर्शी, दीवार ईट, फर्श कच्चा। दहलान (पूरी)	4.650		
					छत खप्पर फर्शी की, दीवार पत्थर ,मिट्टी भूसाघर+ रहवास फर्श कच्चा रहवास।	39.130		
					छत खप्पर+ लकड़ी, पिलर पत्थर का गौशाला	25.200		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, गौशाला।	9.735		
					योग:-	176.670		
127					निरंक	0.000	गब्बरसिंह यादव पिता जयराम यादव	हाँ
					योग:-	0.000		
128					निरंक	0.000	रामदास पिता जयराम	हाँ
					योग:-	0.000		

129	आबादी गाँवठान	376	1.69	फूलसिंह सेन पिता धनसिंह सेन	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	19.240	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, खप्पर, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	10.920		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	8.750		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	6.650		
					लकड़ी पन्नी की गौशाला।	7.560		
					छत टीन, दीवार ईट शौचालय।	2.880		
					छत खप्पर फर्शी, नहानी (खुली)	2.610		
					छत खप्पर फर्शी, दहलान।	36.900		
					योग:-	95.510		
130					निरंक	0.000	छोटेलाल सेन पिता फूलसिंह	हाँ
					योग:-	0.000		
131	आबादी गाँवठान	376	1.69	रगवर सेन पिता गोरेलाल सेन	छत खप्पर, दीवार पत्थर, फर्श कच्चा। रहवास	20.330	निरंक	हाँ
					छत खप्पर दहलान	4.940		
					छत खप्पर दहलान	4.485		
					योग:-	29.755		
132	आबादी गाँवठान	376	1.69	कोमलसिंह पिता गोरेलाल सेन	छत टीन खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	15.480	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	7.200		
					छत टीन दहलान।	8.280		
					योग:-	30.960		
133					निरंक	0.000	अनुज पिता कोमल सेन	हाँ
					योग:-	0.000		
134					निरंक	0.000	राजा पिता कोमल सेन	हाँ
					योग:-	0.000		
135	आबादी गाँवठान	376	1.69	सुदामा पिता बालाप्रसाद तिवारी	छत सीमेंट शीट, दहलान।	19.710	निरंक	हाँ
					छत सीमेंट शीट, दहलान।	15.360		
					योग:-	35.070		
136	आबादी गाँवठान	376	1.69	रामनाथ तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी	छत खप्पर, फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	31.050	निरंक	नहीं
					छत टीन दहलान।	14.490		
					योग:-	45.540		
137						0.000	विमलेश पुत्र रामनाथ	हाँ
					योग:-	0.000		
138	आबादी गाँवठान	376	1.69	जगभान तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी	छत आर सी सी, दीवार ईट, फर्श पक्का	27.010	निरंक	हाँ
					जीना ईट का।	5.500		
					योग:-	32.510		
139	आबादी गाँवठान	376	1.69	विवेक यादव पिता बलराम यादव	छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, रहवास	21.840	निरंक	हाँ
					लकड़ी पन्नी की दहलान।	10.465		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार मिट्टी भूसाधर	22.360		
					छत टीन, दीवार ईट, शौचालय।	2.100		
					छत लकड़ी पन्नी की दहलान।	9.350		
					योग:-	66.115		

140	आबादी गाँवठान	376	1.69	लालसिंह यादव पिता रामसहाय यादव	छत लकड़ी पन्नी की, दीवार लकड़ी पशुशाला	32.760	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार चनखारी, फर्श पक्का रहवास	11.890		
					छत फर्शी, दीवार चनखारी, फर्श पक्का दहलान	12.925		
					छत टीन, खप्पर, दीवार ईट, सीमेंट फर्श पक्का रहवास	19.380		
					छत, खप्पर, दीवार ईट, सीमेंट फर्श पक्का, रहवास	7.830		
					छत खप्पर, दीवार चनखारी, फर्श पक्का, दहलान	12.480		
					छत खप्पर, दीवार चनखारी, फर्श पक्का, रहवास	24.140		
					छत फर्शी, दीवार चनखारी, फर्श पक्का स्टोर रूम	10.000		
					पक्का पूजाघर	10.010		
					छत फर्शी, सीमेंट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय+नहानी	5.510		
					जीना।	0.960		
					भूसाघर	13.000		
					छत स्लैब, दीवार ईट, सीमेंट फर्श पक्का	11.600		
					योग:-	172.485		
141					निरंक	0.000	रोहित पुत्र लालसिंह	हाँ
					योग:-	0.000		
142					निरंक	0.000	विकास पुत्री लालसिंह	हाँ
					योग:-	0.000		
143	आबादी गाँवठान	376	1.69	तुलसीराम पिता बुद्धे अहिरवार	छत खप्पर+फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। नहानी+ कण्डाघर	14.500	निरंक	हाँ
					छत खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	25.730		
					छत खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर	8.400		
					छत फर्शी दहलान।	13.200		
					लकड़ी पन्नी का टपरा। भूसाघर	10.175		
					लकड़ी पन्नी गौशाला	12.513		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, पशुशाला।	22.680		
					योग:-	107.198		
144					निरंक	0.000	पप्पू पिता तुलसीराम अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
145	आबादी गाँवठान	376	1.69	भागीरथ अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार	छत सी सी, दीवार ईट+सीमेंट, फर्श कच्चा। रहवास	31.000	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी पन्नी, चद्दर, दीवार लकड़ी पशुशाला	18.988		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार मिट्टी भूसाघर	19.000		
					छत सीमेंट शीट दहलान	18.425		
					छत पन्नी, दीवार ईट सीमेंट नहानी	3.600		
					छत सीमेंट शीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	1.650		
					छत खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी, रहवास	19.425		
					छत फर्शी दहलान।	16.875		
					योग:-	128.963		

146					निरंक	0.000	सोनू पुत्र भागीरथ	हाँ
					योग:-	0.000		
147					निरंक	0.000	हरिकेश पुत्र भागीरथ	हाँ
					योग:-	0.000		
148	आबादी गाँवठान	376	1.69	दयाराम अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार	छत खप्पर चददर, दीवार पत्थर मिट्टी, रहवास	16.660	निरंक	हाँ
					छत सीमेंट शीट दहलान	10.800		
					योग:-	27.460		
149	आबादी गाँवठान	376	1.690	हलकई अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार	छत फर्शी खप्पर, दीवार ईट+मिट्टी फर्श कच्चा, रहवास	19.570	निरंक	हाँ
					गोशाला लकड़ी पन्नी।	9.250		
					छत लकड़ी पन्नी दहलान।	12.480		
					दीवार ईट +सीमेंट छत टीनसेट, शौचालय	1.210		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा, भूसाघर भू-तल	13.760		
					छत खप्पर, फर्श फर्शी प्रथम तल	13.760		
					योग:-	70.030		
150	आबादी गाँवठान	376	1.69	रामरतन सिंह पिता अमरासिंह अहिरवार	छत टीन, दीवार चनखारी, फर्श कच्चा, गोशाला	12.760	निरंक	हाँ
					लकड़ी पन्नी दहलान	3.575		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा, रहवास	18.150		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा, दहलान	6.840		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा, रहवास भू-तल	14.040		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। प्रथम तल	20.880		
					छत फर्शी, दहलान।	12.455		
					छत सीमेंट शीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	1.150		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट	2.550		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर, मिट्टी, कण्डाघर।	5.520		
					योग:-	97.920		
151					निरंक	0.000	बलवीर पिता रामरतन	हाँ
					योग:-	0.000		
152					निरंक	0.000	जयती पिता रामरतन	हाँ
					योग:-	0.000		
153	आबादी गाँवठान	376	1.690	पप्पू अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। स्टोर रूम	25.200	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	24.850		
					योग:-	50.050		
154	आबादी गाँवठान	376	1.69	गोवर्धन अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	9.490	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, भूसाघर।	7.500		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, दहलान।	10.260		
					योग:-	27.250		



155	आबादी गौवठान	376	1.69	रामसेवक पिता अमरासिंह अहिरवार	छत लकड़ी मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भू-तल	16.020	निरंक	हाँ
					छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी प्रथम तल	16.020		
					छत सीमेंट शीट, दीवार ईट शौचालय।	1.440		
					योग:-	33.480		
156					निरंक	0.000	छोटू पुत्र रामसेवक अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
157	आबादी गौवठान	376	1.69	तुलसाबाई पति कुंदन सिंह सेन	छत खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	28.400	निरंक	हाँ
					छत फर्शी दहलान।	5.003		
					छत खप्पर टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। कमरा	18.675		
					छत खप्पर दहलान।	9.000		
					योग:-	61.078		
158					निरंक	0.000	द्वारका सेन पिता कुंदनलाल सेन	हाँ
					योग:-	0.000		
159	आबादी गौवठान	376	1.690	मनोज चढ़ार पिता मर्दन चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। दहलान	12.455	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी। गोशाला।	12.740		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। रहवास	20.140		
					योग:-	45.335		
160	आबादी गौवठान	376	1.690	मर्दन चढ़ार पिता हरचंद्र चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। रहवास	31.005	निरंक	हाँ
					छत गाटर फर्शी, दीवार ईट। रहवास	12.245		
					छत फर्शी दहलान।	6.463		
					छत फर्शी दहलान।	10.240		
					छत फर्शी शौचालय।	1.440		
					योग:-	61.393		
161	आबादी गौवठान	376	1.690	हरिसिंह सेन पिता कुंददी सेन	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। भूसाघर	16.560	निरंक	हाँ
		67	0.590		छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। गोशाला	13.680		
					छत सीमेंट शीट, दीवार ईट। शौचालय	1.440		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। रहवास	14.400		
					छत लकड़ी, दीवार पत्थर नहानी	3.400		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी। दहलान	10.400		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर कण्डाघर	6.343		
					छत लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी, गोशाला	10.660		
					छत लकड़ी, खप्पर दीवार पत्थर	6.343		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। भूसाघर	12.220		
					योग:-	95.445		

162					निरंक	0.000	रामभजन पुत्र हरीसिंह	हाँ
						0.000		
163					निरंक	0.000	दीपेश कुमार पुत्र हरीसिंह	हाँ
						0.000		
164	आबादी गाँवठान	376	1.690	गजराज चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी रहवास	16.975	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी कमरा	7.520		
					योग:-	24.495		
165	आबादी गाँवठान	376	1.690	चन्द्रभान चढ़ार पिता हीरालाल चढ़ार	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी रहवास	12.240	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी कमरा	8.000		
					योग:-	20.240		
166	आबादी गाँवठान	376	1.69	भावसिंह विश्वकर्मा पिता मोहनलाल विश्वकर्मा	छत फर्शी, टीन, दीवार पत्थर मिट्टी दहलान+कमरा	14.580	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, टीन, दीवार पत्थर मिट्टी रहवास	17.820		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी रहवास	20.400		
					बाऊण्डी पत्थर मिट्टी	0.000		
					छत टीन खप्पर, दीवार लकड़ी, पिलर गौशाला।	9.100		
					छत सीमेंट शीट शौचालय।	1.440		
					योग:-	63.340		
167					निरंक	0.000	शिवरानी पत्नि मोहन लाल विश्वकर्मा	हाँ
					योग:-	0.000		
168	आबादी गाँवठान	376	1.690	सुनील यादव पिता सेवाराम यादव	छत सी सी, दीवार ईट+सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	8.680	निरंक	हाँ
					छत सीमेंट शीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। कमरा+दहलान	8.525		
					छत सीमेंट शीट दीवार ईट शौचालय	2.250		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर	45.140		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी पन्नी गौशाला।	21.420		
					योग:-	86.015		
169	आबादी गाँवठान	376	1.690	अरविन्द यादव पिता सेवाराम यादव	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी रहवास	29.890	निरंक	हाँ
					छत सीमेंट शीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला	29.290		
					छत सीमेंट शीट, दहलान।	5.000		
					योग:-	64.180		
170	आबादी गाँवठान	376	1.690	कपिल यादव पिता बलराम यादव	छत चद्दर, खप्पर, दीवार मिट्टी फर्श कच्चा, रहवास।	25.740	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, किचिन।	10.080		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, नहानी।	7.228		
					योग:-	43.048		



178	आबादी गाँवठान	376	1.69	राजेश राजपूत पिता रघुवीर राजपूत	छत सी सी, फर्श, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	16.960	निरंक	हाँ
					छत सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	6.670		
					छत सी सी, गाटर दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	12.090		
					छत सी सी, गाटर, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। दहलान कमरा	4.800		
					पक्का शौचालय।	6.900		
					योग:-	47.420		
179	आबादी गाँवठान	376	1.69	गर्धर्व सींग पिता बन्नु सींग	छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। कमरा	11.500	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भू-तल	17.160		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। प्रथम तल	17.160		
					जीना पत्थर मिट्टी का।	2.800		
					योग:-	48.620		
180	आबादी गाँवठान	376	1.69	इन्द्रराज सींग पिता निर्मय सींग राजपूत	छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	9.610	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। दहलान	15.190		
					छत ओपन, दीवार ईट सीमेंट, फर्श फर्शी। गौशाला	28.210		
					छत टीन, दीवार ईट सीमेंट, फर्श फर्शी। गौशाला	21.080		
					जीना	3.180		
					छत टीनसेट, दीवार ईट सीमेंट, फर्श फर्शी। शौचालय	3.060		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	15.540		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	7.220		
					योग:-	103.090		
					निरंक	0.000		
181					योग:-	0.000	भूपेन्द्रसिंह राजपूत पिता इन्द्रज सींग	हाँ
182	आबादी गाँवठान	376	1.690	जितेन्द्र सिंह पिता इन्द्रराज सिंह	छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	14.555	निरंक	हाँ
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का। नहानी	4.620		
					योग:-	19.175		
183	आबादी गाँवठान	376	1.690	रघुराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत	छत खप्पर, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	12.600	निरंक	हाँ
					योग:-	12.600		
184	आबादी गाँवठान	376	1.690	रगराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत	छत खप्पर, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	17.625	निरंक	हाँ
					योग:-	17.625		
185	आबादी गाँवठान	376	1.69	रामकिशन चढार पिता रामप्रसाद चढार	छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास भू-तल	20.740	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, आर सी सी, ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास प्रथम-तल	20.740		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श फर्शी। दहलान	8.400		
					आर सी सी	3.710		

					छत फर्शी, दीवार, ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास। भू-तल	10.880		
					छत फर्शी, खप्पर, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास प्रथम-तल	10.880		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास+स्टोर।	10.560		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। नहानी	8.320		
					योग:-	94.230		
186	आबादी गाँवठान	376	1.69	ऊधम चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा+फर्शी।	26.970	निरंक	हाँ
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। दहलान	14.210		
					छत टीनसेट, दीवार लकड़ी, फर्श कच्चा+ फर्शी। गौशाला	15.600		
					छत फर्शी दीवार ईट सीमेंट शौचालय।	1.540		
					योग:-	58.320		
187	आबादी गाँवठान	376	1.69	हरगोविंद चढ़ार पिता पन्नी चढ़ार	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। रहवास भू-तल	22.500	निरंक	हाँ
					छत खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। रहवास प्रथम-तल	22.500		
					योग:-	45.000		
188						0.000	जितेन्द्र चढ़ार पुत्र हरगोविन्द चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
189						0.000	दीपेश चढ़ार पुत्र हरगोविंद चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
190	आबादी गाँवठान	376	1.69	1- राजू 2- गोलू 3- राहुल, पिता स्व. रामगोपाल विश्वकर्मा	छत टीनसेट, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	14.760	निरंक	हाँ
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	5.120		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा। किचिन	12.323		
					छत टीनसेट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय+नहानी।	3.118		
					भू-तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	8.700		
					प्रथम-तल छत खप्पर, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श फर्शी। रहवास	8.700		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा। दुकान	11.900		
					जीना	1.000		
					योग:-	65.620		
191	आबादी गाँवठान	376	1.690	रामनारायण पिता धर्मचंद विश्वकर्मा	छत टीनसेट, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास	17.500	निरंक	हाँ
					योग:-	17.500		
192	आबादी गाँवठान	376	1.69	उमाशंकर पिता रामनारायण विश्वकर्मा	छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	28.290	निरंक	हाँ
					छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	14.740		
					छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	12.210		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर	11.220		

					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दुकान	13.860		
					योग:-	80.320		
193					निरंक	0.000	अनिकेत पिता उमाशंकर विश्वकर्मा	हाँ
						0.000		
194	आबादी गाँवठान	376	1.69	भगवान सिंह पिता तुलाराम यादव	छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट फर्श पक्का। रहवास	15.400	निरंक	हाँ
					छत गाटर फर्शी, दीवार ईट सीमेंट फर्श पक्का। भू-तल	24.640		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार ईट सीमेंट फर्श पक्का। स्टोर रूम प्रथम तल	24.640		
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का हाल	39.050		
					छत टीनसेट दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का जीना	5.520		
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का दहलान	11.000		
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का रहवास	18.480		
					योग:-	138.730		
195	आबादी गाँवठान	376	1.69	माधव प्रसाद पिता भगवान सिंह यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा फर्शी। स्टोर रूम भू-तल	51.100	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श फर्शी स्टोर रूम प्रथम तल	51.100		
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का रहवास	15.810		
					भू-तल छत फर्शी+गाटर, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का रहवास	13.330		
					छत खप्पर, फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श फर्शी रहवास प्रथम तल	13.330		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट शौचालय+नहानी	4.860		
					योग:-	149.530		
196	आबादी गाँवठान	376	1.69	प्रेमनारायण पिता धर्मचंद्र विश्वकर्मा	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श पक्का रहवास	36.080	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा रहवास	22.540		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का, रहवास	14.490		
					छत लकड़ी+मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला भू-तल	10.865		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श लकड़ी मिट्टी, गोदाम प्रथम तल	10.865		
					छत टीनशेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	9.300		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाधर	6.000		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय+नहानी	4.550		
					योग:-	114.690		
197					निरंक	0.000	कमलेश कुमार पिता प्रेमनारायण विश्वकर्मा	हाँ
					योग:-	0.000		

198					निरंक	0.000	आशीष कुमार पिता प्रेमनारायण विश्वकर्मा	हाँ
					योग:-	0.000		
199					निरंक	0.000	सुरेन्द्र पिता श्री प्रेमनारायण विश्वकर्मा	हाँ
					योग:-	0.000		
200	आबादी गाँवठान	376	1.69	डेलन पिता काशीराम कुर्मी	छत खप्पर,+फर्शी, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास	41.360	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास	17.600		
					छत टीनसेट दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श फर्शी, नहानी	4.600		
					छत टीनसेट,+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी दहलान	9.350		
					छत टीनसेट+फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा गोदाम	7.260		
					छत टीनसेट+फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा गौशाला।	15.180		
					योग:-	95.350		
201						0.000	गोविन्द कुर्मी पुत्र डेलन कुर्मी	हाँ
					योग:-	0.000		
202	आबादी गाँवठान	376	1.69	हरनाम कुर्मी पिता काशीराम कुर्मी	छत खप्पर,+फर्शी, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श पक्का, किचिन	20.460	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेट, फर्श फर्शी, दहलान	3.060		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेट, शोचालय+नहानी	3.420		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का गोदाम भू-तल	12.600		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर, मिट्टी, फर्श फर्शी रहवास। प्रथम तल	12.600		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का रहवास।	12.240		
					छत खप्पर, दीवार ईट सीमेट, फर्श पक्का रहवास।	15.120		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का रहवास।	15.120		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का दहलान। भू-तल	12.480		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का दहलान। प्रथम तल	12.480		
					छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का दहलान।	21.840		
					योग:-	141.420		
203					निरंक	0.000	रामसेवक पुत्र हरनाम कुर्मी	हाँ
					योग:-	0.000		
204					निरंक	0.000	खुशाल पुत्र हरनाम कुर्मी	हाँ
					योग:-	0.000		
205					निरंक	0.000	अभिषेक कुर्मी पुत्र हरनाम	हाँ
					योग:-	0.000		

206	आबादी गौवठान	376	1.690	रोशनसींग पिता निर्मयसींग राजपूत	छत फर्शी, +गाटर दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का रहवास।	31.820	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, +गाटर दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का गैरिज। भू-तल	17.484		
					प्रथम तल छत फर्शी, आर सी सी दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का	19.500		
					प्रथम तल छत आर सी सी दीवार कालम+ नहानी दीवार ईट +सीमेंट की	15.000		
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का, रहवास। प्रथम तल	15.750		
					जीना प्रथम तल।	2.880		
					छत फर्शी, +दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, स्टोर रूम	11.750		
					जीना भू-तल	4.410		
					छत खप्पर, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा। किचिन	16.830		
					छत फर्शी, +दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, दहलान।	7.220		
					छत टीन सीमेंट, दीवार ईट सीमेंट, नहानी+शौचालय।	11.250		
					छत खप्पर, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा। गोदाम	24.320		
					योग:-	178.214		
207	आबादी गौवठान	376	1.690	अम्बिका तिवारी पिता सीताराम तिवारी	छत खप्पर, +फर्शी+टीनसेट, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	22.950	निरंक	हाँ
					योग:-	22.950		
208						0.000	हार्बेत तिवारी पिता अम्बिका तिवारी	हाँ
					योग:-	0.000		
209	आबादी गौवठान	376	1.690	चन्द्रनारायण तिवारी पिता सोताराम तिवारी	छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट फर्श पक्का। रहवास	47.190	निरंक	हाँ
					छत सीमेंट टीनसेट, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	17.820		
					छत फर्शी, +दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास भू-तल।	12.240		
					छत खप्पर फर्शी, +दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी, गोदाम प्रथम तल	12.240		
					छत फर्शी, +टीनसेट+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास	31.950		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार फर्शी पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, भूसाघर	18.040		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, गौशाला।	6.300		
					छत फर्शी, +टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, ईट, फर्श कच्चा, दहलान	16.940		
					छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, गोदाम।	25.070		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	4.163		
					योग:-	191.953		
210					निरंक	0.000	धर्मन पुत्र चन्द्रनारायण तिवारी	हाँ
					योग:-	0.000		
211					निरंक	0.000	जितेन्द्र पुत्र चन्द्रनारायण तिवारी	हाँ
					योग:-	0.000		



212					निरंक	0.000	सौरभ पुत्र चन्द्रनारायण तिवारी	हाँ
					योग:-	0.000		
213	आबादी गाँवठान	376	1.69	1. अशोक तिवारी पिता लक्ष्मीनारायण तिवारी 2. मुकेश पिता लक्ष्मीनारायण तिवारी 3. लक्ष्मीबाई पति राकेश तिवारी 4. सीमाबाई पति दीपक तिवारी 5. संध्या पुत्री राकेश 6. आरती पुत्री राकेश	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास। छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, किचिन। छत टीनसेट दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, दहलान। छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, पूजाघर। छत टीन फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, बैठक घर। छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय+ नहानी। छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, गौशाला। छत टीन सेट दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, गोदाम। छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, भूसाघर।	3.520 20.700 17.630 11.960 12.760 36.520 3.330 20.680 7.755 10.105	निरंक	अशोक तिवारी है मुकेश तिवारी नहीं
					योग:-	144.960		
214					निरंक	0.000	आनंद पिता अशोक तिवारी	हाँ
					योग:-	0.000		
215	आबादी गाँवठान	376	1.69	मंगल चढ़ार पिता फूलसिंह चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास। छत खप्पर पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। किचिन छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय +नहानी। छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	10.888 23.370 12.600 4.550 14.430	निरंक	हाँ
					योग:-	65.838		
216					निरंक	0.000	दीक्षा पुत्री मंगल चढ़ार	हाँ
					योग:-	0.000		
217	आबादी गाँवठान	376	1.690	रामदुलारी पत्नी अमान चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान छत सीमेंट सीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	19.525 9.230 1.820	निरंक	हाँ
					योग:-	30.575		
218	आबादी गाँवठान	376	1.690	परसादी पिता अमान चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान	19.525 9.230	निरंक	हाँ
					योग:-	28.755		
219	आबादी गाँवठान	376	1.690	गोवर्धन चढ़ार पिता अमान चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान	19.525 9.230	निरंक	हाँ
					योग:-	28.755		

220	आबादी गौवठान	376	1.690	राजेश पिता आशाराम चढ़ार	छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा भूसाघर	25.080	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा नहानी	5.040		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान	6.440		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा गौशाला।	20.790		
					योग:-	57.350		
221	आबादी गौवठान	376	1.690	रामस्वरूप पिता भैयालाल चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	14.400	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	14.400		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	9.600		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला	7.040		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, फर्श कच्चा गौशाला।	6.510		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, नहानी।	5.280		
					योग:-	57.230		
222	आबादी गौवठान	376	1.69	तुलसीराम चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	15.580	निरंक	हाँ
					योग:-	15.580		
223	आबादी गौवठान	376	1.690	रामसेवक चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार	छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला	7.380	निरंक	हाँ
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	29.480		
					छत आर सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। दहलान	3.850		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, पन्नी कण्डाघर।	7.920		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट सीमेंट। शौचालय।	2.380		
					योग:-	51.010		
224	आबादी गौवठान	376	1.69	भैयालाल चढ़ार पिता लच्छू चढ़ार	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास (भू-तल)	30.600	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान (प्रथम-तल)	19.550		
					छत टीनसेट, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। रहवास (प्रथम-तल)	30.600		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। दहलान	19.550		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	15.950		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गोदाम	9.880		
					छत टीनसेट सीमेंट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	1.950		
					योग:-	128.080		
225					निरंक	0.000	अमित पुत्र भैयालाल	हाँ
					योग:-	0.000		
226	आबादी गौवठान	376	1.690	गेंदाबाई चढ़ार पति आशाराम चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	23.400	निरंक	हाँ
					योग:-	23.400		

227					निरंक	0.000	शोकम चढार पिता आशाराम चढार	हाँ
					योग:-	0.000		
228	आबादी गाँवठान	376	1.690	महेश चढार पिता आशाराम चढार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	23.040	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, सीमेंट ईट,+सीमेंट, फर्श कच्चा। रहवास	11.880		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, , फर्श कच्चा। दहलान	6.820		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	1.560		
					योग:-	43.300		
229	आबादी गाँवठान	376	1.690	राजकुमार चढार पिता क्षमाधार चढार	भू-तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	34.760	निरंक	हाँ
					भू-तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	19.750		
					प्रथम-तल, छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। रहवास	25.960		
					प्रथम-तल, छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। दहलान	19.750		
					छत फर्शी, दीवार ईट,+सीमेंट शौचालय	2.880		
					छत सीमेंट सीट+फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला	32.550		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा भूसाधर।	26.970		
					छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा किचिन।	10.080		
					छत टीनसेट, सीमेंट, दीवार ईट+सीमेंट+पत्थर, फर्श कच्चा, दहलान	17.640		
					छत फर्शी,सीमेंटसीट, सीमेंट, दीवार ईट+सीमेंट+पत्थर, मिट्टी फर्श कच्चा, दहलान	16.200		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी+लकड़ी फर्श कच्चा दहलान।	16.380		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी+लकड़ी फर्श कच्चा रहवास।	8.060		
					योग:-	230.980		
230	आबादी गाँवठान	376	1.690	रामगुलाम चढार पिता रामप्रसाद चढार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा।	26.240	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। किचिन	6.480		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। दहलान	9.360		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	1.800		
					योग:-	43.880		
231					निरंक	0.000	अखिलेश पुत्र रामगुलाम	हाँ
					योग:-	0.000		
232	आबादी गाँवठान	376	1.690	धमेन्द्र चढार पिता ऊधम चढार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	15.910	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, + खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	13.330		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, लकड़ी, फर्श कच्चा। किचिन	3.910		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, लकड़ी, फर्श कच्चा। दहलान	3.450		
					योग:-	36.600		

233	आबादी गौवठान	376	1.690	महारानी चढ़ार प्रति जयराम चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	26.880	निरंक	हो
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	15.000		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श कच्चा। रहवास	9.500		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। भूसाघर	18.800		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। किचिन	25.420		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, गौशाला	24.140		
					छत टीनसेट, दीवार ईट सीमेंट, फर्श कच्चा, शौचालय	2.400		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, गौशाला	20.700		
					योग:-	142.840		
234					निरंक	0.000	श्रीराम चढ़ार पिता जयराम चढ़ार	हो
					योग:-	0.000		
235					निरंक	0.000	नीलेश कुमार पिता जयराम चढ़ार	हो
					योग:-	0.000		
236	आबादी गौवठान	376	1.69	शकर चढ़ार पिता जुझार चढ़ार	भू-तल छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	31.763	निरंक	हो
					प्रथम-तल छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी। रहवास	31.763		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट+सीमेंट, शौचालय+नहानी	5.400		
					छत दीवार ईट+सीमेंट, नहानी	1.820		
					योग:-	70.745		
237					निरंक	0.000	नारान पिता शंकर चढ़ार	हो
					योग:-	0.000		
238					निरंक	0.000	कल्याण पिता शंकर चढ़ार	हो
					योग:-	0.000		
239	आबादी गौवठान	376	1.69	बालकिशन चढ़ार पिता पन्नालाल चढ़ार	छत खप्पर,+फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। रहवास	29.760	निरंक	हो
					भू-तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा। किचिन	1.680		
					प्रथम तल छत खप्पर,+फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श फर्शी। कण्डाघर	1.680		
					छत टीन सेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, दहलान।	4.675		
					छत टीन सेट, दीवार सीमेंट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	1.560		
					छत टीनसेट, दीवार ईट + मिट्टी, नहानी	2.040		
					योग:-	41.395		
240					निरंक	0.000	भूपेन्द्र पुत्र बालकिशन	हो
					योग:-	0.000		



249	आबादी गाँवठान	376	1.690	शिवलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी	भू-तल छत फर्शी, दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श कच्चा, गोदाम	13.200	निरंक	हाँ
					प्रथम-तल छत सीमेंट सीट दीवार ईट मिट्टी, फर्श फर्शी, गोदाम	13.200		
					छत फर्शी, दीवार पिलर फर्श कच्चा।	9.240		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	3.040		
					योग:-	38.680		
250	आबादी गाँवठान	376	1.69	गोपीलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी	छत गाटर फर्शी, दीवार पत्थर सीमेंट फर्श कच्चा। भू-तल	18.450	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श फर्शी। प्रथम-तल	18.450		
					छत फर्शी, दीवार पिलर, फर्श फर्शी। दहलान	19.440		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, चीरा, फर्श कच्चा। दहलान	29.210		
					योग:-	85.550		
251					निरंक	0.000	वीरसिंग लोधी पुत्र गोपीलाल	हाँ
					योग:-	0.000		
252	आबादी गाँवठान	376	1.69	हाकम लोधी पिता गोपीलाल लोधी	भू-तल छत फर्शी, दीवार पत्थर, सीमेंट, फर्श पक्का।	24.570	निरंक	हाँ
					प्रथम-तल छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	24.570		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान	8.400		
					जीना	3.480		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गोदाम	37.350		
					छत फर्शी, दीवार फर्शी चीरा, फर्श कच्चा। दहलान	21.580		
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार मिट्टी, फर्श कच्चा गोशाला	9.660		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	2.400		
					योग:-	132.010		
253					निरंक	0.000	संजय लोधी पिता हाकम लोधी	हाँ
					योग:-	0.000		
254					निरंक	0.000	वर्षा लोधी पुत्री हाकम	हाँ
					योग:-	0.000		
255	आबादी गाँवठान	376	1.69	भारत लोधी पिता इमरत लोधी	भू-तल छत गाटर, फर्शी, छत पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	47.190	निरंक	हाँ
					प्रथम-तल, छत फर्शी, ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	47.190		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्शी, फर्श कच्चा। गोदाम	31.590		
					छत फर्शी, दीवार चीरा पत्थर, फर्श कच्चा। दहलान	8.970		
					छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। मंदिर	7.820		
					भू-तल, छत लकड़ी फर्शी, दीवार चीरा पत्थर, फर्श कच्चा। दहलान	7.920		
					प्रथम-तल, छत फर्शी, दीवार चीरा पत्थर, फर्श कच्चा। दहलान	7.920		
					भू-तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर,	12.210		

					मिट्टी, फर्श कच्चा। बैठक कम			
					प्रथम तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर	12.210		
					मिट्टी, फर्श फर्शी किचिन			
					छत फर्शी, दीवार पत्थर, मिट्टी,	17.940		
					फर्श कच्चा। दहलान			
					छत खप्पर, फर्शी, दीवार पत्थर,	10.730		
					मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला			
					मंदिर चबूतरा।	5.265		
					योग:-	216.955		
256					निरंक	0.000	सेविश पुत्र	हैं
							भारत लोधी	
					योग:-	0.000		
257					निरंक	0.000	रविन्द्र कुमार	हैं
							पिता	
							भारतसिंह	
							लोधी	
						0.000		
258	आबादी	376	1.690	राजाराम लोधी पिता	भू-तल, छत गाटर फर्शी, दीवार	60.060	निरंक	हैं
	गौवठान			पजन सिंह (फौत)	पत्थर+सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास			
				बारसान	प्रथम-तल, छत गाटर	58.520		
				1- शीलरानी वेवा	फर्शी, +खप्पर, दीवार ईट+सीमेंट,			
				राजाराम	फर्श पक्का। रहवास			
				2- अरविन्द पिता	छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी,	21.280		
				राजाराम	फर्श कच्चा, रहवास			
				3- रामकृष्ण पिता	छत गाटर फर्शी, दीवार पत्थर+	9.430		
				राजाराम	सीमेंट फर्श कच्चा। दहलान			
				4- मेहरबान पिता	भू-तल, छत फर्शी, दीवार	43.560		
				राजाराम	पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास			
				5- जगदीश पिता	प्रथम-तल, छत खप्पर, दीवार	43.560		
				राजाराम	पत्थर+मिट्टी, फर्श फर्शी। रहवास			
					भू-तल, छत खप्पर, दीवार चौरा	6.235		
					पत्थर, फर्श कच्चा। दहलान			
					प्रथम-तल, छत खप्पर, दीवार चौरा	6.235		
					पत्थर, फर्श फर्शी। दहलान			
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी,	16.720		
					फर्श कच्चा, भूसाधर			
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी,	6.160		
					फर्श कच्चा दुकान।			
					छत फर्शी, दीवार लकड़ी, फर्श	20.020		
					कच्चा, दहलान			
					छत खप्पर+टीनसेट, दीवार पत्थर	17.820		
					मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला			
					योग:-	309.600		
259	आबादी	376	1.690	दयाल आदिवासी	छत सीमेंट सीट, दीवार ईट मिट्टी,	23.560	निरंक	हैं
	गौवठान			पिता प्यारेलाल	फर्श कच्चा।			
				आदिवासी				
					योग:-	23.560		
260	आबादी	376	1.690	कमला आदिवासी पति	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी,	25.230	निरंक	हैं
	गौवठान			प्यारेलाल आदिवासी	फर्श कच्चा रहवास।			
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी	9.860		
					गौशाला।			
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट सीमेंट	1.440		
					शौचालय।			
					दीवार ईट, छत लकड़ी, गौशाला	32.500		
					योग:-	69.030		
261					निरंक	0.000	हरिराम पुत्र	हैं
							प्यारेलाल	
					योग:-	0.000		

262					निरंक	0.000	अनेक पुत्र हरिराम	हाँ
					योग:-	0.000		
263					निरंक	0.000	भीकम सौर पुत्र हरिराम	हाँ
					योग:-	0.000		
264	आबादी गाँवठान	376	1.690	बसंत ठाकुर पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर	भू-तल, छत गाटर फर्शी, दीवार पत्थर+सीमेंट, फर्श पक्का। गोदाम	101.200	निरंक	हाँ
					प्रथम तल छत फर्शी, खप्पर, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का, रहवास।	84.480		
					प्रथम तल दहलान	14.080		
					छत टीनसेट, दीवार ईट मिट्टी, फर्श पक्का। गैरेज	17.040		
					छत गाटर फर्शी, दीवार पत्थर+सीमेंट, फर्श पक्का। दहलान	38.570		
					भू-तल, छत गाटर फर्शी, दीवार पत्थर+सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	91.770		
					प्रथम-तल, छत गाटर फर्शी, दीवार पत्थर+सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	91.770		
					भू-तल, छत गाटर फर्शी, दीवार पत्थर+सीमेंट, फर्श पक्का। स्टोर रूम	41.860		
					प्रथम-तल, छत फर्शी, +आर सी सी, दीवार पत्थर+सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	41.860		
					छत फर्शी ईट मिट्टी, फर्श फर्शी, गौशाला।	63.450		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर+सीमेंट, फर्श कच्चा। भूसाघर	198.810		
					छत टीनसेट, दीवार ईट पिलर, फर्श फर्शी, गौशाला	29.970		
					छत टीनसेट, दीवार लोहा पाइप, फर्श कच्चा। गौशाला	49.500		
					छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	71.820		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। दहलान	33.655		
					पानी की टंकी, ईट सीमेंट,	4.030		
					योग:-	973.865		
265	आबादी गाँवठान	376	1.690	संजीवसिंह पिता बसंतसिंह ठाकुर	भू-तल छत आर सी सी दीवार पत्थर, सीमेंट, फर्श पक्का रहवास	74.318	निरंक	हाँ
					भू-तल छत आर सी सी दीवार पत्थर, सीमेंट, फर्श पक्का दहलान	55.050		
					प्रथम-तल छत आर सी सी दीवार ईट, सीमेंट, फर्श पक्का +टाइल्स, रहवास	129.368		
					प्रथम-तल छत आर सी सी दीवार ईट, सीमेंट, फर्श पक्का। स्टोर रूम	13.600		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, शौचालय।	4.410		
					योग:-	276.745		
266	आबादी गाँवठान	376	1.690	चरनसिंग सौर पिता हरिराम सौर	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास।	23.850	निरंक	हाँ
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास।	16.200		
					छत लकड़ी, दीवार लकड़ी +चोरा, फर्श कच्चा। दहलान	19.980		
					योग:-	60.030		



267	आबादी गौवठान	376	1.690	विशाल आदिवासी पिता हरिराम आदिवासी	छत टैनसेट, दीवार ईट सीमेंट, फर्श कच्चा, रहवास	20.482	निरंक	हाँ
					योग:-	20.482		
268	आबादी गौवठान	376	1.69	राजकमार राजपूत पिता मचलसिंह राजपूत	छत फर्शी, पशुशाला दहलान छत टीन, दहलान छत टीन, दीवार ईट शौचालय + नहानी। छत आर सी सी दीवार ईट, सीमेंट, फर्श पक्का रहवास छत आर सी सी दीवार ईट, सीमेंट, फर्श पक्का रहवास छत टीन, दीवार ईट सीमेंट। फर्श पक्का भूसाघर। छत टीन खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। किचिन	14.040 17.160 4.940 11.550 22.320 16.200 17.280	निरंक	हाँ
					योग:-	103.490		
269					निरंक	0.000	साक्षी पुत्री राजकमार	हाँ
					योग:-	0.000		
270	आबादी गौवठान	376	1.690	1- संतोष चढ़ार पिता रघवर चढ़ार 2- हरिसींग चढ़ार पिता रघवर चढ़ार	छत खप्पर लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, दहलान। छत फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी, रहवास। छत फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी, पूजाघर। छत फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी, स्टोर रूम। छत लकड़ी + पन्नी, दीवार ईट की, भूसाघर	29.750 26.350 12.160 15.040 17.490	निरंक	क्र.-1 स्थायी क्र.-2 हरिसींग का निवास नहीं है
		77	0.090		योग:-	100.790		
271	आबादी गौवठान	408	0.120	बृजलाल अहिरवार पिता दरऊ अहिरवार	छत खप्पर पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। स्टोर रूम+दहलान पक्का शौचालय। छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	19.840 1.560 9.860 13.720	निरंक	हाँ
					योग:-	44.980		
272					निरंक	0.000	राजा पिता बृजलाल अहिरवार	हाँ
						0.000		
273					निरंक	0.000	स्वाति पुत्री बृजलाल अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
274	आबादी गौवठान	408	0.120	दिनेश अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार	छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास लकड़ी पन्नी भूसाघर।	15.660 11.020 15.540	निरंक	हाँ
					योग:-	42.220		

275	आबादी गौवठान	408	0.120	रामरानीबाई पति रामलाल अहिरवार	छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा । दहलान	13.200	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा । रहवास	20.900		
					छत टीन, दीवार ईट पत्थर मिट्टी, कण्डाघर	7.600		
					छत लकड़ी पन्नी नहानी	2.240		
					योग:-	43.940		
276					निरंक	0.000	निरंजन पिता रामलाल अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
277	आबादी गौवठान	408	0.120	अरविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार	छत फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी किचिन।	14.400	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, आर सी सी दीवार ईट, सीमेंट, फर्श कच्चा रहवास	7.480		
					योग:-	21.880		
278	आबादी गौवठान	408	0.120	हरगोविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार	छत फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी किचिन।	12.800	निरंक	हाँ
					छत फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी रहवास।	22.400		
					योग:-	35.200		
279	आबादी गौवठान	408	0.120	भुजबल अहिरवार पिता हलकई अहिरवार	छत गाटर, फर्शी, आर सी सी, दीवार पत्थर, फर्श पक्का।	17.820	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, आर सी सी, दीवार पत्थर, फर्श फर्शी।	14.580		
					योग:-	32.400		
280	आबादी गौवठान	408	0.120	परसू अहिरवार पिता उद्देत अहिरवार	छत फर्शी, दीवार ईट नहानी + शौचालय।	5.670	निरंक	हाँ
					छत लकड़ी, पन्नी दहलान।	7.665		
					भू-तल छत फर्शी+मिट्टी, दीवार ईट, फर्श पक्का। रहवास	16.380		
					प्रथम तल छत टीन, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। किचिन	12.710		
					भू-तल छत फर्शी+मिट्टी, दीवार ईट,+सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	15.480		
					प्रथम तल छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का, रहवास	16.750		
					छत टीन, दीवार ईट जीने की दहलान।	3.680		
					फर्शी पत्थर के जीना।	3.410		
					योग:-	81.745		
281					निरंक	0.000	तुलसीराम पुत्र परसू अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
282	शासकीय	429	0.040	तेजाबाई आदिवासी पति नन्ना आदिवासी	छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, किचिन	11.250	निरंक	हाँ
					छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, दहलान।	10.500		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	27.840		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट शौचालय।	1.100		
					योग:-	50.690		

283	शासकीय	429	0.040	प्रतापसिंह ठाकुर पिता नत्थूसिंह ठाकुर	छत टीन, दीवार पत्थर ईट सीमेंट, फर्श कच्चा। रहवास	11.160	निरंक	हो
					छत टीन, दीवार पत्थर ईट सीमेंट, फर्श कच्चा। दहलान+रहवास	20.880		
					छत टीन, दीवार पत्थर ईट सीमेंट, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	13.320		
					भू-तल छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	25.500		
					प्रथम तल छत फर्शी,+टीन+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	25.500		
					छत सीमेंट सीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का, दहलान किचिन।	7.800		
					छत सीमेंट सीट, दीवार पत्थर मिट्टी, नहानी।	5.000		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का। किचिन	12.690		
					आंगन फर्श सीमेंट।	14.805		
					छत कबेलू, दीवार पत्थर मिट्टी, स्टोर रूम	13.200		
					छत कबेलू, दीवार पत्थर मिट्टी, स्टोर रूम	19.980		
					छत सीमेंट सीट,+फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श फर्शी, गौशाला	44.000		
					योग:-	213.835		
284	शासकीय	429	0.040	कम्मोदी पिता मल्हू आदिवासी	छत फर्शी,+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। कमरा	14.040	निरंक	हो
					प्रथम-तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	9.450		
					भू-तल, छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। भूसाघर	9.450		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास	10.080		
					छत फर्शी पन्नी, दहलान	5.670		
					प्रथम तल छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी,।	11.100		
					भू-तल छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी,। स्टोर रूम	11.100		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी,। भूसाघर	8.695		
					योग:-	79.585		
285					निरंक	0.000	शिवकेश पिता मल्हू आदिवासी	हो
					योग:-	0.000		
286					निरंक	0.000	अभिकेश पुत्र कम्मोदी	हो
					योग:-	0.000		
287					निरंक	0.000	जगतसिंग पुत्र कम्मोदी	हो
					योग:-	0.000		
288	शासकीय	429	0.040	गनेश पिता जवार अहिरवार	छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी,। दहलान+रहवास	15.925	निरंक	हो
					छत फर्शी, खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी,। रहवास	14.700		
					छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	25.480		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट, शौचालय।	1.960		
					छत टीन, दीवार ईट नहानी।	2.100		
					योग:-	60.165		

289					निरंक	0.000	रविकुमार पिता गनेशराज अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
290	शासकीय	429	0.040	गनपत पिता उददेत अहिरवार	छत खप्पर, दीवार ईट सीमेंट, फर्श कच्चा रहवास	15.000	निरंक	हाँ
					छत फर्शी, सी सी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श कच्चा रहवास	17.280		
					छत फर्शी खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, गौशाला।	10.070		
					योग:-	42.350		
291					निरंक	0.000	हेमंत सींग पुत्र गनपत अहिरवार	हाँ
					योग:-	0.000		
292	चारागाह	59/1	5.030	हरिबाई पति रतनसिंह	छत खप्पर+फर्शी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा	18.288	निरंक	नहीं
					योग:-	18.288		
293	चारागाह	67	0.590	खूबसींग पिता मुन्ना आदिवासी	खण्डर छत लकड़ी की, दीवार मिट्टी+लकड़ी, फर्श कच्चा।	12.160	निरंक	नहीं
					योग:-	12.160		
294	आबादी गौवठान	77	0.09	कल्लू सिंह चढ़ार पिता मर्दन चढ़ार	छत खप्पर, दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा रहवास	21.373	निरंक	नहीं
					योग:-	21.373		
295	शासकीय	77	0.090	टीकाराम अहिरवार पिता गोपीलाल अहिरवार	छत फर्शी, दीवार ईट मिट्टी फर्श कच्चा रहवास	38.220	निरंक	नहीं
					योग:-	38.220		
296	आबादी गौवठान	89	0.920	कमला चढ़ार पत्नि दम्मा चढ़ार	छत खप्पर फर्शी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा। रहवास	16.800	निरंक	नहीं
					योग:-	16.800		
297	शासकीय	89	0.920	खूबसींग आदिवासी पिता लल्लू आदिवासी	दीवार ईट की छत शेष, फर्श कच्चा ।	8.280	निरंक	नहीं
					योग:-	8.280		
298	आबादी गौवठान	89	0.920	उदयराम यादव पिता जयराम यादव	छत खप्पर पन्नी, फर्शी की, दीवार पत्थर, फर्श कच्चा रहवास।	60.885	निरंक	नहीं
					छत पत्थर फर्शी की दहलान।	24.600		
					छत फर्शी, दीवार ईट मिट्टी, फर्श पक्का	17.955		
					क्षतिग्रस्त शौचालय	1.920		
					योग:-	105.360		
299	चारागाह	92	0.32	पूरन चढ़ार पिता अमोली चढ़ार	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	26.650	निरंक	नहीं
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी फर्श कच्चा दहलान।	11.340		
					योग:-	37.990		
300	चारागाह	92	0.320	विजय सेन पिता मंगल सेन	लकड़ी का टपरा।	12.580	निरंक	नहीं
					फाऊडेशन बीम 15 से.मी।	31.205		
					योग:-	43.785		
301	आबादी गौवठान	220	0.030	महेन्द्र आदिवासी पिता जगन आदिवासी	छत खप्पर, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	17.355	निरंक	नहीं
					छत टीन, फर्श कच्चा दहलान।	19.890		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा किचिन।	9.750		
					योग:-	46.995		

302	चारागाह	240	0.1	रामसखी यादव पिता बबलू यादव	छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्शी गौशाला।	25.600	निरंक	नहीं
					छत टीन दीवार ईट, फर्श पक्का शौचालय।	1.440		
					योग:-	27.040		
303	आबादी गाँवठान	376	1.690	अवधेश यादव पिता कृष्णबिहारी यादव	पत्थर+दीवार+बाऊण्ड्री खण्डहर।	36.250	निरंक	नहीं
					योग:-	36.250		
304	आबादी गाँवठान	376	1.69	देवीसींग, वीरसींग, हरगोविन्द, अच्छेलाल, रतिराम, रम्भू, विनीता पिता हरीसींग, क्रपारानी देवा हरीसींग यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा	19.950	निरंक	नहीं
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा	19.600		
					योग:-	39.550		
305	आबादी गाँवठान	376	1.690	गोलू सेन पिता लखन सेन	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	7.000	निरंक	नहीं
					योग:-	7.000		
306	आबादी गाँवठान	376	1.69	धर्मन सेन पिता रामदयाल सेन	छत लकड़ी पन्नी की दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा।	12.600	निरंक	नहीं
					छत लकड़ी पन्नी दहलान।	7.740		
					योग:-	20.340		
307	आबादी गाँवठान	376	1.69	कमलेश अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा, रहवास	19.600	निरंक	नहीं
					छत खप्पर पत्थर दहलान।	12.740		
					योग:-	32.340		
308	आबादी गाँवठान	376	1.69	सुरीला अहिरवार पति रामसेवक अहिरवार	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास	27.280	निरंक	नहीं
					छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। दहलान + नहानी	20.770		
					योग:-	48.050		
309	आबादी गाँवठान	376	1.69	राजकुमार सेन पिता कुंदन सेन	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। रहवास	12.400	निरंक	नहीं
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। स्टोर रूम	12.000		
					छत फर्शी दहलान।	6.720		
					योग:-	31.120		
310	आबादी गाँवठान	376	1.690	भैयालाल पिता हरप्रसाद सेन	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी। रहवास	14.040	निरंक	नहीं
					योग:-	14.040		
311	आबादी गाँवठान	376	1.690	रघुराज यादव पिता हजारीलाल यादव	छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास	7.350	निरंक	नहीं
					छत फर्शी, दीवार पत्थर भू तल भूसाधर	25.110		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर प्रथम तल	25.110		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर फर्श कच्चा स्टोर रूम	13.000		
					छत सीमेंट शीट शौचालय।	2.250		
					योग:-	72.820		
312	आबादी गाँवठान	376	1.69	जयसिंह पिता कुददी सेन	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी रहवास	19.270	निरंक	नहीं
					छत टीन, दीवार पत्थर मिट्टी दहलान	6.840		
					योग:-	26.110		

313	आबादी गौवठान	376	1.690	हरिसिंह अहिरवार पिता हलकई अहिरवार	छत फर्शी, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा,। गौशाला	20.805	निरक	नहीं
					छत फर्शी, दीवार ईट मिट्टी, फर्श कच्चा,। दहलान	5.700		
					योग:-	26.505		
314	आबादी गौवठान	376	1.69	सुनील कुमार नेमा पिता राजाराम नेमा	छत टीन+खप्पर, दीवार ईट, फर्श फर्शी भूसाघर	22.950	निरक	नहीं
					छत टीन, दीवार ईट, फर्श फर्शी दहलान	16.200		
					छत टीन, दहलान	15.120		
					खण्डहर।	14.400		
					जीना फर्शी।	10.260		
					योग:-	78.930		
315	आबादी गौवठान	376	1.69	रूपेश नेमा पिता राजाराम नेमा	छत टीन+खप्पर, दीवार ईट, फर्श फर्शी	22.950	निरक	नहीं
					छत टीन, दीवार ईट, फर्श फर्शी	18.360		
					बीम	62.900		
					योग:-	104.210		
316	आबादी गौवठान	376	1.690	रमेशप्रसाद नेमा पिता हजारीलाल नेमा	छत फर्शी+खप्पर, दीवार ईट, कच्ची, खण्डहर	45.760	निरक	नहीं
					योग:-	45.760		
317	आबादी गौवठान	376	1.690	सुधीर नेमा पिता रमेशप्रसाद नेमा	छत फर्शी खण्डहर।	45.500	निरक	नहीं
					योग:-	45.500		
318	आबादी गौवठान	376	1.690	नवनीत नेमा पिता महेश नेमा नेमा	छत आर सी सी, दीवार ईट, फर्श पक्का। रहवास स्टोर रूम।	53.763	निरक	नहीं
					योग:-	53.763		
319	आबादी गौवठान	376	1.690	डॉ. महेश नेमा पिता हजारीलाल नेमा	छत टीन सेट,+खप्पर दीवार ईट, पोश पशुशाला	28.750	निरक	नहीं
					छत खप्पर फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी भूसाघर।	9.540		
					खण्डहर।	53.110		
					पत्थर बाऊण्ड्री।	58.710		
					योग:-	150.110		
320	आबादी गौवठान	376	1.69	चन्द्रपाल यादव पिता भगवानसिंह यादव	छत फर्शी दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। मंदिर	4.620	निरक	नहीं
					फर्श पक्का चबूतरा।	18.620		
					छत टीनसेट, दीवार फर्शी, फर्श फर्शी। गौशाला	33.600		
					छत फर्शी ग्राटर,, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास भू-तल	32.320		
					छत खप्पर अंग्रेजी,, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास प्रथम-तल	32.320		
					छत आर सी सी,, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास दहलान	11.220		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा+फर्शी किचिन।	34.300		
					छत फर्शी, दीवार पिलर, फर्श फर्शी दहलान	3.600		
					जीना	2.340		
					योग:-	172.940		
321	आबादी गौवठान	376	1.690	नारान पिता भैयालाल चढार	छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा। गौशाला	14.040	निरक	नहीं
					छत लकड़ी पन्नी, दीवार लकड़ी, फर्श कच्चा गोदाम।	5.400		
					योग:-	19.440		

322	आबादी गाँवठान	376	1.690	सुधीर राव पिता दत्ताराव	छत लकडी पन्नी, दीवार लकडी, फर्श कच्चा	26.980	निरंक	नहीं
					छत ओपन,दीवार ईट खण्डहर	9.765		
					छत ओपन,दीवार पत्थर मिट्टी खण्डहर	21.735		
					छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास	41.600		
					छत फर्शी , दीवार पत्थर मिट्टी फर्श फर्शी। दहलान	36.400		
					छत फर्शी , दीवार लकडी+ फर्शी। फर्श कच्चा, गौशाला।	19.125		
					योग:-	155.605		
323	आबादी गाँवठान	376	1.690	लालाराम आदिवासी पिता प्यारेलाल आदिवासी	छत खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा रहवास।	25.560	निरंक	नहीं
					छत लकडी पन्नी, दीवार लकडी, चीरा, फर्श कच्चा, दहलान।	18.460		
					योग:-	44.020		
324	आबादी गाँवठान	408	0.120	श्यामरानी पति मल्हू अहिरवार	छत फर्शी, दीवार ईट, सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	13.320	निरंक	नहीं
					छत सीमेंट सीट,दहलान।	13.320		
					छत फर्शी, दीवार ईट, फर्श पक्का।	12.395		
					भू-तल, छत फर्शी, दीवार ईट, फर्श पक्का।	10.395		
					प्रथम-तल छत सीमेंट सीट, दीवार ईट, फर्श पक्का रहवास।	10.395		
					छत टीन, दीवार ईट सीमेंट। फर्श पक्का रहवास।	9.360		
					छत फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी, शौचालय+नहानी	2.400		
					जीना फर्शी कै।	2.880		
					योग:-	74.465		
325	आबादी गाँवठान	408	0.120	हरलाल अहिरवार पिता जवार अहिरवार	छत सीमेंट सीट, दीवार ईट मिट्टी, फर्श पक्का। रहवास+दहलान	17.360	निरंक	नहीं
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। किछिन	6.160		
					छत सीमेंट सीट, दीवार ईट नहानी+शौचालय।	5.100		
					छत फर्शी, दीवार ईट सीमेंट, फर्श पक्का। रहवास	25.900		
					योग:-	54.520		
कुल योग:-						15192.775		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान

नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या  
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या  
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें आर मूलभूत न्यूनतम सुवधिएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयाग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या



- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदोकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत पसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर— 57 का कुल रकबा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकबा 13.71 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक—0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गयी है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 49, 52, रकबा क्रमशः 7.130, 0.930 हे. भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिस पर हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50\*20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

3— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 07/02/2024 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-3415-भू-अर्जन-2022-23

रायसेन, दिनांक 14 दिसम्बर 2023

{ धारा 19 (1) के अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन }

—00—

प्र.क्र. 00016/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

**1. भूमि का वर्णन :-**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (क) ग्राम             | :- बगलबाड़ा/दिमाड़ा (बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग) |
| (ख) तहसील             | :- बरेली   |
| (ग) जिला              | :- रायसेन  |
| (घ) भूमि का क्षेत्रफल | :- 4.040 हे.   |

**अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन**

क्र.	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	92/1	1.133	0.080
2	42/2	6.103	0.016
3	89	1.805	0.040
4	49	4.828	0.048
5	88/1	0.607	0.024
6	87/1	2.550	0.080
7	86	0.356	0.072
8	84	1.850	0.161
9	82/2	1.261	0.060
10	56	3.958	0.405
11	54	0.413	0.048
12	53/1	2.255	0.064
13	53/2	1.214	0.048
14	53/3	1.214	0.048
15	52	1.100	0.072
16	50/3	1.266	0.052
17	50/2	1.266	0.028
18	44/2	1.951	0.405
19	139	3.330	0.280
20	138/1	2.266	0.120
21	137/1	1.072	0.240
<b>बगलबाड़ा योग</b>		<b>41.798</b>	<b>2.391</b>
1	432	0.470	0.032
2	433/1/2/1	0.591	0.040
3	433/1/2/2	0.510	0.040
4	433/2	1.850	0.040
5	434/1	0.849	0.018

6	434/2	0.647	0.018
7	443/1	0.641	0.040
8	443/2	0.642	0.040
9	444/1	0.352	0.028
10	444/2	0.344	0.028
11	444/3	0.348	0.028
12	445	0.251	0.040
13	446	0.247	0.108
14	448	1.202	0.680
15	456	0.348	0.060
16	458/1	0.765	0.025
17	458/2	0.546	0.025
18	458/3	0.522	0.026
19	459/1	0.481	0.024
20	459/2	0.482	0.024
21	460	0.279	0.020
22	462/1/1	2.278	0.132
23	462/1/2	2.279	0.133
दिमाडा योग		16.928	1.649
21 + 23 = कुलयोग-		58.726	4.040

- यह घोषणा हितवद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013 ) की धारा 11 में यथा उपबंधित सम्यक जाँच करने के पश्चात की गई है।
- कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.सेतु संभाग भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।
- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि.सेतु उप संभाग रायसेन के कार्यालय में तथा कार्यालीन समय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2024

क्रमांक एफं ०००१/२०२४-५६८-१-०७..... - आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4(4)(ख)(दो) ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि केन्द्र सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से तथा राज्य के हित में स्वैच्छिक आधार पर विहित करें, अधिप्रमाणन करने की अनुमति देती है।

अतएव ऐसे प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 तैयार किए हैं, जिसमें राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर "आधार" का उपयोग करने के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुमति की वांछा कर सकती है।

इस संबंध में भारत सरकार (इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन फाईल क्रमांक 13(2)/2021-EG.11 दिनांक 12 मई 2023 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 आधार ((वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिधान) अधिनियम, 2016 की सहपठित धारा 4(4)(ख)(दो) अनुसार विभागीय ऑनलाईन पोर्टल के भू-अभिलेख, संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहियों और अभिलेख, एवं संबंधित सेवाओं के लिए भुगतान, जैसी विभिन्न सेवाओं के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ताओं की पहचान, हां/ नहीं का उपयोग कर, या/ और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन के लिए दी गई अनुमति से अवगत कराया गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा अधिसूचित करता है कि विभागीय भू-अभिलेख, संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहियों और अभिलेख, एवं संबंधित सेवाओं के लिए भुगतान जैसी विभिन्न सेवाओं हेतु राजस्व विभाग के ऑनलाईन पोर्टल को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अनुसार पहचान के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन फाईल क्रमांक 13(2)/2021-EG.11 दिनांक 12 मई 2023 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, स्वैच्छिक रूप से आधार अधिप्रमाणन की वांछा कर सकेगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

F No. 0001/2024-sec-1-07..... :- Section 4 (4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe.

WHEREAS, for such purpose, the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 wherein the State Government can seek permission under the said rules to use Aadhaar on voluntary basis.

In this regard, Government of India (Ministry of Electronics and Information Technology), vide its office memo No. 13(2)/2021-EG-II dated 12 May 2023, has conveyed approval of the competent authority to the secretary of Department of Revenue, Madhya Pradesh to allow for authenticating identity of users on online portal for Land records, related court proceedings and records, and payment for related services using Yes /No, OR / And, in terms of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with Section. 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

Now, THEREFORE, Government of Madhya Pradesh, hereby notifies that the Revenue Department's online portal for Land records, related court proceedings and records, and payment for related services can seek, Aadhaar authentication on voluntary basis for the purpose of identification as per rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 Subject to the conditions mentioned in the Government of India vide Official Memorandum File No. 13(2)/2021-EG-II, dated 12 May 2023.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2024

क्र. F. No.--07-1745496-2023-Sec-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला रीवा के अनुविभाग मनगवां की सीमाओं को परिवर्तित करने, अनुविभाग गुढ़ को पुनर्गठित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:—

## अनुसूची

क्र.	विद्यमान अनुविभाग का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण.	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् अनुविभाग एवं उसका मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनुविभाग मनगवां (मुख्यालय मनगवां)	तहसील रायपुर के पटवारी हल्का नं. 01 से हल्का नं. 45 तक अपवर्जित होंगे.	अनुविभाग मनगवां (मुख्यालय मनगवां)	प्रस्तावित अनुभाग मनगवां में तहसील मनगवां के हल्का नं. 01 से हल्का नं. 88 तक समाविष्ट होंगे.	उत्तर— सिरमौर, त्योंथर तहसील. पूर्व—जिला मऊगंज दक्षिण—तहसील रायपुर कर्चुलियान. पश्चिम—तहसील सिरमौर, हुजूर, रायपुर कर्चुलियान.
2	....	....	अनुविभाग गुढ़ (मुख्यालय गुढ़)	अनुभाग गुढ़ में तहसील गुढ़ के पटवारी हल्का नं. 01 से हल्का नं. 42 तथा तहसील रायपुर के हल्का नं. 01 से हल्का नं. 45 तक समाविष्ट होंगे.	उत्तर—तहसील मनगवां. पूर्व—जिला मऊगंज दक्षिण—जिला सीधी. पश्चिम—तहसील हुजूर.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

क्र.-B-9272-दो-2-35-2019.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23,24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-B-9280-दो-2-63-2022.- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार(M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2023 के एवं पश्चात् में दिनांक 23,24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार(M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-9284-दो-2-57-2009.- श्री एफ.एच. काजी, एस. पी.एस.ए. (एस.ए.) एंड सी.पी.सी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2023 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2023 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्र.-A-8167-दो-2-32-2022.- श्री मनीष शर्मा, संकाय सदस्य(जूनियर-1), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2023

क्र.-A-8132-दो-2-10-2018.- सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-A-8134-दो-2-32-2018.- श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 28 से 29 नवम्बर 2023 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 28 नवम्बर से 13 दिसम्बर 2023 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-8136-दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि रामकुमार चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-8138-दो-3-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2023 तक का तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से दिनांक 2 जनवरी 2024 तक का कुल दस दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक 3 दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित / शीतकालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कर्महे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्र.-A-8151-दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25

दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन / अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-8153-दो-33-2021.- श्रीमती प्रवीणा व्यास, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय इन्दौर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2023 तक तीन दिन का शीतकालीन तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक का दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रवीणा व्यास, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती प्रवीणा व्यास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहती।

क्र.-A-8155-दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दमोह को दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।



क्र.-A-8157-दो-2-67-2022.- श्री शरद भामकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 13 से 22 दिसम्बर 2023 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री शरद भामकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शरद भामकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-8159-दो-3-21-2022.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-8161-दो-2-15-2019.- श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-A-8163-दो-2-62-2016.- श्री आर.एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैदण को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस

दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-A-8165-दो-2-52-2015.- श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-A-8169-दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 25 नवम्बर 2023 का एवं 28 नवम्बर 2023 का कुल दो दिन आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 25 से 28 नवम्बर 2023 तक, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.-A-8171-दो-2-48-2022.- श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 28 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

क्र.-A-8402-दो-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 4 से 8 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-8415-तीन-19-5-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 01 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-8421-दो-2-41-2021.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-8423-दो-2-33-2021.- श्रीमती प्रवीणा व्यास, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के

अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

क्र.-अवकाश-1863.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कंट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कंट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-अवकाश-1865.- श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 28 नवम्बर से 02 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2023 तथा पश्चात् में दिनांक 03 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), के पद पर पदस्थ रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.